



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 8, 2003/माघ 19, 1924

No. 6]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 8, 2003/MAGHA 19, 1924

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)
General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2003

सा.का.नि. 53.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 (1986 का 47) की धारा 139 की उपधारा (1) और उपधारा (2) खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षक समूह "ग" पद भर्ती नियम, 1996 का आंशिक अधिक्रमण करते हुए, जहां तक वे राष्ट्रीय सुरक्षक में सहायक कमांडर (जी डी) (श्रेणी-I) सहायक कमांडर (संचार) श्रेणी-I, सहायक कमांडर (भेपजज्ञ/प्रयोगशाला तकनीशियन/सहायक मैटर्न/नर्सिंग सिस्टर/प्रभारी सिस्टर/रेडियो ग्राफर/प्रयोगशाला सहायक/थियेटर सिस्टर) श्रेणी-I, सहायक कमांडर (यांत्रिक/परिवहन) श्रेणी-I, सहायक कमांडर (नक्शानवीस) श्रेणी-I, सहायक कमांडर (अनुदेशक) श्रेणी-1, सहायक कमांडर (लिपिकीय/निजि सहायक आशुलिपिक) श्रेणी-I (प्रत्येक समूह "ग" पदों की श्रेणी-I से संबंधित सभी पद) सिवाय उन बातों के जो ऐसे आंशिक अधिक्रमण से पूर्व की गई हैं या करने से रह गई हैं, गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सुरक्षक में समूह "ख", राजपत्रित पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय सुरक्षक (समूह "ख" अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1. सहायक कमांडर (जी. डी.) श्रेणी-I	146 * (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय (योधक)	6500-200-10500 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं			परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	
8		9			10	
लागू नहीं होता		लागू नहीं होता			लागू नहीं होता	
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता				प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा		
11				12		

प्रतिनियुक्ति

प्रतिनियुक्ति :

सेना या केन्द्रीय अथवा राज्य पुलिस संगठनों से ऐसे योधक कार्मिक जो—

(i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और सुसंगत क्षेत्र में दो वर्ष का कार्यकारी अनुभव रखते हैं ;

12

(ii) आयु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 43 वर्ष से अधिक नहीं; और

(iii) चिकित्सीय रूप से स्वस्थ और श्रेणी-I प्रवर्ग में हो।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

टिप्पण :—इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व सहायक कमांडर (जी. डी.) श्रेणी-I के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिक को इन नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया गया समझा जाएगा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
2. सहायक कमांडर (संचार) श्रेणी-I	38 * (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय (योधक)	6500-200-10500 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8

9

10

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

11

12

प्रतिनियुक्ति

प्रतिनियुक्ति :

सिग्नल आर्मी कोर या केन्द्रीय अथवा राज्य पुलिस संगठनों से संचार शाखा के ऐसे योधक कार्मिक जो :—

(i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और सुसंगत क्षेत्र में दो वर्ष का कार्यकारी अनुभव रखते हैं ;

(ii) आयु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 43 वर्ष से अधिक नहीं;

(iii) चिकित्सीय रूप से स्वस्थ और श्रेणी-I प्रवर्ग में हो।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

टिप्पण :—इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व सहायक कमांडर (संचार) श्रेणी-I के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिक को इन नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया गया समझा जाएगा।

13

14

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
सहायक कमांडर (भेषज/प्रयोग- शाला तकनी- 1000/सहायक मैटर्न/नर्सिंग सिस्टर/प्रभारी सिस्टर/रेडियो ग्राफर/प्रयोग- शाला सहायक/ थियेटर सिस्टर) श्रेणी-1	19* (2002) *कार्यभार के आधार पर परि- वर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अनुसूचिवीय (योधक)	6500-200- 10500 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
8	9	10				
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता				
11	12					
प्रतिनियुक्ति	<p>प्रतिनियुक्ति : सेना चिकित्सीय कोर या केन्द्रीय अथवा राज्य पुलिस संगठनों से योधक कार्मिक या केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो :—</p> <p>(i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और सुसंगत क्षेत्र में दो वर्ष का कार्यकारी अनुभव रखते हैं ;</p> <p>(ii) आयु, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 48 वर्ष से अधिक नहीं; और</p> <p>(iii) चिकित्सीय रूप से स्वस्थ और "शेप-I" प्रवर्ग में हो।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p> <p>टिप्पण :—इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व सहायक कमांडर (पराचिकित्सीय) श्रेणी-I के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिक को इन नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया गया समझा जाएगा।</p>					
13	14					
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता					

1	2	3	4	5	6	7
4. सहायक कमांडर (यांत्रिक/परिवहन) श्रेणी-I	4* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित अननुसचिवीय (योधक)	6500-200-10500 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
8		9		10		
लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		
11				12		
प्रतिनियुक्ति				प्रतिनियुक्ति : सेना या केन्द्रीय अथवा राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे योधक कार्मिक जो— (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और सुसंगत क्षेत्र में दो वर्ष का कार्यकारी अनुभव रखते हैं ; (ii) आयु, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 48 वर्ष से अधिक नहीं और (iii) चिकित्सीय रूप से स्वस्थ और “श्रेणी-I” प्रवर्ग में हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।) टिप्पण :—इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व सहायक कमांडर (यांत्रिक/परिवहन) श्रेणी-I के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिक को इन नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया गया समझा जाएगा।		
13				14		
लागू नहीं होता				लागू नहीं होता।		

1	2	3	4	5	6	7
5. सहायक कमांडर (नक्शानवीस) श्रेणी-I	1* (2002) *कार्यभार के आधार पर परि- वर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित अननुसचिवीय (योधक)	6500-200- 10500 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
8	9	10				
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता				
11	12					

प्रतिनियुक्ति

प्रतिनियुक्ति :

सेना (विद्युत यांत्रिक इंजीनियरी) या केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्मिक जो—

(i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और सुसंगत क्षेत्र में दो वर्ष का कार्यकारी अनुभव रखते हैं ;

(ii) आयु, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 43 वर्ष से अधिक नहीं; और

(iii) चिकित्सीय रूप से स्वस्थ और "शेप-I" प्रवर्ग में हो।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

टिप्पण :—इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व सहायक कमांडर (नक्शानवीस) श्रेणी-I के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिक को इन नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया गया समझा जाएगा।

13				14		
लागू नहीं होता				लागू नहीं होता		
1	2	3	4	5	6	7
6. सहायक कमांडर (अनुदेशक) श्रेणी-I	25 * (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय (योधक)	6500-200-10500 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(8)		(9)		(10)		
लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		
11				12		

प्रतिनियुक्ति

प्रतिनियुक्ति :

सेना या केन्द्रीय अथवा राज्य पुलिस संगठनों से ऐसे योधक कार्मिक जो—

(i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और सुसंगत क्षेत्र में दो वर्ष का कार्यकारी अनुभव रखते हैं ;

12

(ii) आयु, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 43 वर्ष से अधिक नहीं; और

(iii) चिकित्सीय रूप से स्वस्थ और "शेप-I" प्रवर्ग में हो।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

टिप्पण :— इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व सहायक कमांडर (अनुदेशक) श्रेणी-I के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिक को इन नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया गया समझा जाएगा।

13				14		
लागू नहीं होता				लागू नहीं होता		
1	2	3	4	5	6	7
7. सहायक कमांडर (लिपिकीय/ निजि सहायक/ आशुलिपिक) श्रेणी-I	70* (2002) *कार्यभार के आधार पर परि- वर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय (योधक)	6500-200- 10500 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
8		9		10		
लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		
11				12		
प्रतिनियुक्ति				प्रतिनियुक्ति : सेना या केन्द्रीय अथवा राज्य पुलिस संगठनों/केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से ऐसे योधक/अयोधक कार्मिक जो— (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और सुसंगत क्षेत्र में दो वर्ष का कार्यकारी अनुभव रखते हैं ; (ii) आयु, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 54 वर्ष से अधिक नहीं; (iii) चिकित्सीय रूप से स्वस्थ और "शेप-I" प्रवर्ग में हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।) टिप्पण :— इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व सहायक कमांडर (लिपिकीय/निजि सचिव आशुलिपिक) श्रेणी-I के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिक को इन नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया गया समझा जाएगा।		
13				14		
लागू नहीं होता				लागू नहीं होता		

[फा.सं. ई-307/3/2001-एन. एस. जी. (पर्स-III)]

दुर्गा शंकर मिश्रा, निदेशक (कार्मिक)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 27th January, 2003

G.S.R. 53.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of section 139 of the National Security Guard Act, 1986 (47 of 1986), and in partial supersession of the Ministry of Home Affairs, National Security Guard Group 'C' posts Recruitment Rules, 1996, in so far as they relate to the posts of Assistant Commander (GD) Grade-I, Assistant Commander (Communication) Grade-I, Assistant Commander (Pharmacist/Lab Tech/Asstt. Matron/Nursing Sister/Sister Incharge/Radio Grapher/Lab Asstt/Theater Sister) Grade-I, Assistant Commander (Mechanic/Transport) Grade-I, Assistant Commander (Draughtman) Grade-I, Assistant Commander (Instructor) Grade-I, Assistant Commander (Clerical/PAs Stenographer) Grade-I, (all posts relating to Grade-I of each Group 'C' posts) in the National Security Guard except as respects things done or omitted to be done before such partial supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group "B" non-gazetted posts in the National Security Guard, under the Ministry of Home Affairs, namely :—

1. Short title and commencement .—(1) These rules may be called the National Security Guard (Group "B" — Non-Gazetted Post) Recruitment Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of said posts, its classification and scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment to these posts, age limit, qualifications and other matters relating there to shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification .—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
1. Assistant Commander (GD) Grade-I	146* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial, (Combatised)	Rs. 6500-200-10500.	Not applicable

Whether benefits of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
---	-------------------------------	---

6

7

8

Not applicable

Not applicable

Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees

Period of probation, if any

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods

9

10

11

Not applicable

Not applicable

Deputation

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

12

13

14

Deputation :—Combatised personnel from Army or Central or State Police Organisations—

Not applicable

Not applicable

- I (i) holding analogous posts on a regular basis with two year working experience in the relevant field;
- (ii) age not exceeding 43 years as on the closing date of receipt of applications; and
- (iii) should be medically fit in "SHAPE-I" category.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of Central Government shall ordinarily not to exceed five years)

Note :—The personnel on deputation to the post of Assistant Commander (GD) Grade-I before the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions contained in these rules.

1	2	3	4	5
2. Assistant Commander (Communication) Grade-I	38* (2002) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial, (Combatised)	Rs. 6500-200-10500/-	Non applicable
6	7	8		
Not applicable	Not applicable	Not applicable		
9	10	11		
Not applicable	Not applicable	Deputation		
12	13	14		
Deputation :— Combatised personnel from Army Corps of Signals or Central or State Police Organisations from Communication Branch :—		Not applicable	Not applicable.	
I (i) holding analogous posts on a regular basis with two years working experience in the relevant field;				
(ii) age not exceeding 43 years as on the closing date of receipt of applications; and				
(iii) should be medically fit in "SHAPE-I" category.				
(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of Central Government shall ordinarily not to exceed five years)				
Note :— The personnel on deputation to the post of Assistant Commander (Communication) Grade-I before the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions contained in these rules.				
1	2	3	4	5
3. Assistant Commander (Pharmacist/Lab Tech/Assistant Matron/Nursing Sister/Sister Incharge/ Radio Grapher/Lab Assistant/Theatre Sister) Grade-I	19* (2002) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial, (Combatised)	Rs. 6500-200-10500/-	Not applicable

6	7	8
Not applicable	Not applicable	Not applicable
9	10	11
Not applicable	Not applicable	Deputation

12	13	14
Deputation :— Combatised personnel from Army Medical Corps or Central or State Police Organisations or Central Government Offices :—	Not applicable	Not applicable.

- (i) holding analogous posts on a regular basis with two year working experience in the relevant field;
- (ii) age not exceeding 48 years as on the closing date of receipt of applications; and
- (iii) should be medically fit in "SHAPE-I" category.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of Central Government shall ordinarily not to exceed five years)

Note :—The personnel on deputation to the post of Assistant Commander (Para-Medical) Grade-I before the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions contained in these rules.

1	2	3	4	5
4. Assistant Commander (Mechanic/transport) Grade-I	4* (2002) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial, (Combatised)	Rs. 6500-200-10500/-	Not applicable

6	7	8
Not applicable	Not applicable	Not applicable
9	10	11
Not applicable	Not applicable	Deputation

12	13	14
Deputation :— Combatised personnel from Army or Central or State Police Organisations :—	Not applicable	Not applicable.
<ol style="list-style-type: none"> (i) holding analogous posts on a regular basis with two year working experience in the relevant field; (ii) age not exceeding 43 years as on the closing date of receipt of applications; and 		

12

(iii) should be medically fit in "SHAPE-I" category.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of Central Government shall ordinarily not to exceed five years)

Note :—The personnel on deputation to the post of Assistant Commander (Mechanic/Transport) Grade-I before the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions contained in these rules.

1	2	3	4	5
5. Assistant Commander (Draughtman) Grade-I	1* (2002) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial, (Combatised)	Rs. 6500-200-10500/-	Not applicable
6	7	8		
Not applicable	Not applicable	Not applicable		
9	10	11		
Not applicable	Not applicable	Deputation		
12	13	14		
Deputation :— Personnel from Army (Electrical Mechanic Engineering) or Central Government :— (i) holding analogous posts on a regular basis with two year working experience in the relevant field; (ii) age not exceeding 43 years as on the closing date of receipt of applications; and (iii) should be medically fit in “SHAPE-I” category. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of Central Government shall ordinarily not to exceed five years) Note :— The personnel on deputation to the post of Assistant Commander (Draughtman) Grade-I before the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions contained in these rules.	Not applicable	Not applicable.		

1	2	3	4	5
6. Assistant Commander (Instructor) Grade-I	25* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial, (Combatised)	Rs. 6500-200-10500/-	Not applicable
6		7		8
Not applicable		Not applicable		Not applicable
9		10		11
Not applicable		Not applicable		Deputation

12	13	14
Deputation : Combatised personnel from Army or Central or State Police Organisations :—	Not applicable	Not applicable.

- (i) holding analogous posts on a regular basis with two year working experience in the relevant field;
- (ii) age not exceeding 43 years as on the closing date of receipt of applications; and
- (iii) should be medically fit in "SHAPE-I" category.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of Central Government shall ordinarily not to exceed five years).

Note : The personnel on deputation to the post of Assistant Commander (Instructor) Grade-I before the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions contained in these rules.

1	2	3	4	5
7. Assistant Commander (Clerical/Personal Assistants/ Stenographer) Grade-I	70* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial, (Combatised)	Rs. 6500-200-10500/-	Not applicable
6	7	8		
Not applicable	Not applicable	Not applicable		
9	10	11		
Not applicable	Not applicable	Deputation		

12	13	14
Deputation : Combatised/Non-Combatised personnel from Army or Central or State Police Organisations/ Central Government Offices :—	Not applicable	Not applicable.
(i) holding analogous posts on a regular basis with two year working experience in the relevant field;		
(ii) age not exceeding 54 years as on the closing date of receipt of applications; and		
(iii) should be medically fit in "SHAPE-I" category.		
(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of Central Government shall ordinarily not to exceed five years)		
Note : The personnel on deputation to the post of Assistant Commander (Clerical/PAs/Stenographers) Grade-I before the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions contained in these rules.		

[F. No. E-307/3/2001/NSG/Per-III]

DURGA SHANKAR MISHRA, Director (Personnel)

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2003

सा.का.नि. 54.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2003 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 की अनुसूची 1 में,
 - (1) प्रविष्टि (21) में,—
 - (क) "संयुक्त सचिव" शब्दों के स्थान पर, "सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव", शब्द रखे जाएंगे; और
 - (ख) "प्रधान निजी सचिव" शब्दों के स्थान पर, "प्रधान निजी सचिव, ज्येष्ठ पद्धति विश्लेषक", शब्द रखे जाएंगे।
- (2) प्रविष्टि (21) के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(21क) विधि आचार्य, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी"।

[सं. 39017/01/99-स्थापना (ख)]

श्रीमती प्रतिभा मोहन, निदेशक

पाद टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 13 सितम्बर, 1958 में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 789 के तहत प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा उनमें संशोधन किए गए :—

क्रम सं.	सा.का.नि. सं.	तारीख
1.	1197	20-12-1958
2.	1451	10-12-1960
3.	731	3-6-1961
4.	1047	26-8-1961

क्रम सं.	सा.का.नि. सं.	तारीख
5.	382	31-3-1962
6.	1644	8-12-1962
7.	1689	15-12-1962
8.	578	6-4-1963
9.	1888	14-12-1963
10.	679	2-5-1964
11.	431	20-3-1965
12.	599	24-4-1965
13.	1672	20-11-1965
14.	388	19-3-1966
15.	622	30-4-1966
16.	944	18-6-1966
17.	1433	21-6-1969
18.	633	18-4-1970
19.	879	6-6-1970
20.	1654	6-11-1971
21.	168	24-2-1973
22.	465(अ)	14-11-1974
23.	594	17-5-1975
24.	2288	30-8-1975
25.	1063	24-7-1976
26.	610	14-5-1977
27.	740	2-6-1979
28.	441(अ)	14-7-1979
29.	73	23-1-1982
30.	480	29-5-1982
31.	481	29-5-1982
32.	329	6-4-1985
33.	479	18-5-1985
34.	512	1-6-1985
35.	918	5-10-1985
36.	268	12-4-1986
37.	1071	20-12-1986
38.	273	18-4-1987
39.	74	6-1-1988
40.	590	23-7-1988
41.	704	23-9-1989
42.	37	20-1-1990
43.	623	6-10-1990
44.	666	30-11-1991
45.	383(अ)	21-5-1999
46.	219	17-7-1999
47.	88	17-2-2001

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Department of Personnel and Training)**

New Delhi, the 31st January, 2003

G.S.R. 54.—In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (3) of article 320 of the Constitution, the President hereby makes the following regulations further to amend the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Amendment Regulations, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule I to the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958,—

(1) in entry (21),—

- (a) for the words “Joint Secretary”, the words “Secretary, Additional Secretary, Joint Secretary”, shall be substituted; and
- (b) for the words “Principal Private Secretary”, the words “Principal Private Secretary, Senior System Analyst” shall be substituted.

(2) after entry (21), the following entry shall be inserted namely :—

“(21A) Professor of Law, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussorie”.

[No. 39017/01/99-Estt.(B)]

Smt. PRATIBHA MOHAN, Director

Footnote : The Principal Regulations were published vide notification number GSR 789, dated the 13th September, 1958 and subsequently amended vide :—

S. No.	G.S.R. No.	Date
(1)	(2)	(3)
1.	1197	20-12-1958
2.	1451	10-12-1960
3.	731	3-6-1961
4.	1047	26-8-1961
5.	382	31-3-1962
6.	1644	8-12-1962
7.	1689	15-12-1962
8.	578	6-4-1963
9.	1888	14-12-1963
10.	679	2-5-1964
11.	431	20-3-1965
12.	599	24-4-1965
13.	1672	20-11-1965
14.	388	19-3-1966
15.	622	30-4-1966
16.	944	18-6-1966
17.	1433	21-6-1969
18.	633	18-4-1970
19.	879	6-6-1970
20.	1654	6-11-1971
21.	168	24-2-1973
22.	465(E)	14-11-1974

(1)	(2)	(3)
23.	594	17-5-1975
24.	2288	30-8-1975
25.	1063	24-7-1976
26.	610	14-5-1977
27.	740	2-6-1979
28.	441(E)	14-7-1979
29.	73	23-1-1982
30.	480	29-5-1982
31.	481	29-5-1982
32.	329	6-4-1985
33.	479	18-5-1985
34.	512	1-6-1985
35.	918	5-10-1985
36.	268	12-4-1986
37.	1071	20-12-1986
38.	273	18-4-1987
39.	74	6-1-1988
40.	590	23-7-1988
41.	704	23-9-1989
42.	37	20-1-1990
43.	623	6-10-1990
44.	666	30-11-1991
45.	383(E)	21-5-1999
46.	219	17-7-1999
47.	88	17-2-2001

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2003

सा.का.नि. 55.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधीन उपनिदेशक (फल एवं सब्जी परिरक्षण) के प्रादेशिक कार्यालय में कतिपय समूह “ग” पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपनिदेशक (फल एवं सब्जी परिरक्षण) का कार्यालय समूह “ग” पद भर्ती नियम 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. आरम्भिक गठन.—(1) इन नियमों के आरम्भ के पूर्व नियमित आधार पर पद धारण करने वाले कार्मिकों को इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया समझा जाएगा।

(2) इन पदों के आरम्भिक गठन से पूर्व उपनियम (1) में निर्दिष्ट कार्मिकों की की गई निरन्तर नियमित सेवा परीक्षा अवधि, प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा, पुष्टि और पेंशन के प्रयोजन के लिए सेवा में संगणित की जाएगी।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
1. उच्च श्रेणी 05* लिपिक (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।		साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननु- सचिवीय	4000-100- 6000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं					सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10				
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	शून्य				
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता					प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	
11	12					
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसमें आमेलन भी है)					प्रोन्नति : 3050-75-3950-80-4590 रु. के वेतनमान के ऐसे विभागीय अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/पब्लिक सेक्टर	

उपक्रमों/अर्धसरकारी/स्वशासी/कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी :—

(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 3050-4590 रुपये या समतुल्य वेतनमान में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है,

साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : विभागीय अवर श्रेणी लिपिक प्रतिनियुक्ति पर आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति : निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—	लागू नहीं होता।
1. उपनिदेशक (फल एवं सब्जी परिरक्षण) —अध्यक्ष	
2. वरिष्ठ निरीक्षण अधिकारी (फल एवं सब्जी परिरक्षण) —सदस्य	
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का एक प्रतिनिधि —सदस्य	

1	2	3	4	5	6	7
2. अवर श्रेणी लिपिक	5* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित अननु-सचिवीय।	3050-75-3950-80-4590 रु.	अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 3.5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के गंगोत्री उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	लागू नहीं होता

8	9	10
<p>(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समतुल्य।</p> <p>(ii) अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति।</p> <p>टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं)/कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>	लागू नहीं होता	दो वर्ष
11	12	
<p>(i) 85 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>(ii) 10 प्रतिशत विभागीय परीक्षा द्वारा एवम्</p> <p>(iii) 5 प्रतिशत पात्र समूह "घ" कर्मचारियों में से प्रोन्नति द्वारा।</p>	<p>प्रोन्नति :</p> <p>(i) 10 प्रतिशत रिक्तियां ऐसे विभागीय समूह "घ" कर्मचारियों में से जिनके पास मैट्रिक या समतुल्य अर्हता है और जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है, विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर भरी जाएंगी। परीक्षा के लिए पात्रता हेतु अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष है (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 50 वर्ष)।</p> <p>टिप्पणी :</p> <p>(क) किसी वर्ष विशेष से संबंधित नहीं भरी गई रिक्तियां आगे नहीं ले जाई जाएंगी।</p> <p>(ख) यदि धारा (i) के तहत उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक उम्मीदवार उक्त परीक्षा में अर्हता प्राप्त हुए हों तो बाद के वर्षों में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों में भरने हेतु इन अधिक कर्मचारियों पर विचार किया जा सकता है ताकि बाद में ली जाने वाली परीक्षा में अर्हता प्राप्त होने वाले कर्मचारियों से पूर्व पहले ली गई परीक्षा में अर्हता प्राप्त हुए कर्मचारियों पर विचार किया जाए।</p> <p>(ii) 5 प्रतिशत रिक्तियां ऐसे समूह "घ" कर्मचारियों में से जिनके पास मैट्रिक या समतुल्य अर्हता है से ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर भरी जाएंगी।</p>	
13	14	
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें होंगे :—</p> <p>1. उपनिदेशक (फल और सब्जी परिरक्षण)</p> <p>2. वरिष्ठ निरीक्षण अधिकारी (फल और सब्जी परीक्षण)</p> <p>3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय का एक प्रतिनिधि</p>	<p>—अध्यक्ष</p> <p>—सदस्य</p> <p>—सदस्य</p>	लागू नहीं होता।

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi, the 14th January, 2003

G.S.R. 55.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group 'C' in the Regional Offices of the Deputy Director (Fruit and Vegetable Preservation), under the Ministry of Food Processing Industries, namely :—

1. **Short title and commencement** :—(1) These rules may be called the Regional Offices of the Deputy Director (Fruit and Vegetable Preservation) Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, their classification and scale of pay** :—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualification etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule aforesaid.

4. **Initial Constitution** :—(1) The personnel holding the posts on regular basis, before the commencement of these rules, shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules.

(2) The regular continuous service of personnel mentioned the sub-rule (1) prior to the posts at the initial constitution shall count for the purpose of probation period, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the service.

5. **Disqualification** :—No person—

- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving** :—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of the age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or Non-Selection	Age limit for direct recruitment	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Upper Division Clerk	5* (2003) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 4000-100-6000	Non-Selection	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Nil	Promotion, failing which by deputation (including absorption).

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making Recruitment
---	---	--

(12)	(13)	(14)
------	------	------

Promotion : Departmental Lower Division Clerks in the pay scale of Rs. 3050-75-3950-80-4590/- with five years' regular service in the grade.

Deputation : Officers of the Central/State Governments/ Union Territories/Recognised Research Institutes/Public Sector Undertakings/ Semi Govt./Autonomous/Statutory Organisations :—

(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or

(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 3050-4590 or equivalent in the parent cadre/department.

Note 1 : Period of deputation, including the period of deputation held in another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

The maximum age limit for appointment by deputation shall not be 56 years as on the closing date for receipt of applications.

Note 2 : Departmental Lower Division Clerks shall not be eligible for applying on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for being appointed on promotion.

Group 'C' Departmental Promotion Committee comprising the following :

1. Deputy Director (F & VP) —Chairman
2. Senior Inspecting Officer (F & VP) —Member
3. A Representative of the Scheduled Caste/Scheduled Tribe community —Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Lower Division Clerk	5* (2003) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Non-Selection	Between 18 and 25 years (relaxable for Government servants up to 35 years in accordance with instructions issued by Central Govt.).	Not applicable

(6)

Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications for candidates in India other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep, Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh,

(8)	(9)	(10)	(11)
<p>(i) Matriculation or equivalent qualification from a recognised Board or University.</p> <p>(ii) Typing speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi.</p> <p>Note 1. Qualifications are relaxable at discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2. The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribe if, at any stage of Selection, the Staff Selection Commission are of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	Not applicable	Two years	<p>(i) 85% by direct recruitment through Staff Selection Commission</p> <p>(ii) 10% on the basis of departmental examination, and</p> <p>(iii) 5 % by promotion from amongst eligible Group 'D' employees.</p>

(12)	(13)	(14)
<p>Promotion :</p> <p>(i) 10% vacancies shall be filled from amongst Departmental Group 'D' employees possessing Matriculation or equivalent qualifications with three years' regular service in the grade, on the basis of a departmental qualifying examination. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years (50 years of age for candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes).</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee comprising the following :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deputy Director (F & VP) —Chairman 2. Senior Inspecting Officer (F & VP) —Member 3. A Representative of the Scheduled Caste/Scheduled Tribe community —Member 	Not applicable

Note :

- (a) Unfilled vacancies pertaining to a particular year shall not be carried over.
- (b) If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualify at the said examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.
- (ii) 5% of the vacancies shall be filled up on the basis of seniority-cum-fitness from amongst Group 'D' employees who possess Matriculation or equivalent qualifications.

[F. No. A-12018/1/2001-F&VP (Admn.)]

M. JAYARAMAN, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2003

सा.का.नि. 56 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में ज्येष्ठ प्राध्यापक, जैव भौतिकी (शरीर क्रिया विज्ञान) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, ज्येष्ठ प्राध्यापक जैव भौतिक (शरीर क्रिया विज्ञान) (समुह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथाविनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरहता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	योग्यता के आधार पर चयन या चयन-सह-प्लेष्ठता अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं
-----------	----------------	----------	---------	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
प्लेष्ठ प्राध्यापक, जैव भौतिकी (शरीर क्रिया विज्ञान)	01* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननु-सचिवीय	14300-400-15900-450-18600-500-20100 रु.	लागू नहीं होता	पचास वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित, शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो
---	--	---------------------------

8	9	10
<p>आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्हता और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए।</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.डी. (जैव भौतिकी)/एम.एस.सी. (जैव भौतिकी या चिकित्सा जैव रसायन) और पी.एच.डी. (जैव भौतिकी)/एम डी (शरीर क्रिया विज्ञान) या एम डी (जैव रसायन) और जैव भौतिकी में एक वर्ष का प्रशिक्षण।</p> <p>(iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वृत्ति में 10 वर्ष का अनुभव जिसमें 4 वर्ष का अनुभव किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में उपाचार्य/सहयुक्त आचार्य के रूप में होना चाहिए।</p> <p>टिप्पण 1 :—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2 :—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>	लागू नहीं होता।	एक वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति/आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेदन किया जाएगा
11	12
सीधी भर्ती	लागू नहीं होता
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति :	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
1. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन —अध्यक्ष 2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन —सदस्य 3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ —सदस्य 4. संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ —सदस्य	

[फा. सं. बी. 24011/12/2002-एम ई डेस्क-II]

एस. के. मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 22nd January, 2003

G.S.R. 56.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Lecturer in Biophysics (Physiology) in the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Senior Lecturer in Biophysics (Physiology) (Group 'A' Gazetted Post) Recruitment Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. These rules shall apply to the post as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the said schedule.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection by merit or Selection-cum-seniority or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6	7
Senior Lecturer in Bio-Physics (Physiology)	01* (2001) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 14,300-400-15900-450-18,150. PLUS Non-Practicing Allowance for Medical Graduates only.	Not applicable	Not exceeding fifty years' (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Govt.). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribe for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	No
Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	
8		9		10	11	
Essential : (i) A basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register. (ii) M.D. (Bio-Physics)/M.Sc. (Bio-Physics or Medical Biochemistry) with Ph. D. (Bio-Physics)/M.D. (Physiology) or M.D. (Biochemistry) with one year training in Bio-Physics from a recognized University/Institution or equivalent.		Not applicable		One year	Direct recruitment	

8

(iii) Three year's teaching experience in the concerned speciality after acquiring postgraduate qualification as Lecturer/Registrar/Senior Resident/Demonstrator/Tutor in a recognized Medical College/Teaching Institution.

Note 1 :—

Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 :—

The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making Recruitment
A	B	C
Not applicable	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) : 1. Home Secretary, Chandigarh Administration —Chairman 2. Secretary, Medical Education and Research, Chandigarh Administration. —Member 3. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh. —Member 4. Professor and Head of the concerned Department of Government Medical College and Hospital, Chandigarh. —Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[No. V-24011/12/2002-ME Desk-II]

S. K. MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2003

सा.का.नि. 57.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में सांख्यिकी-विद्-सह-ज्येष्ठ प्राध्यापक (सामुदायिक चिकित्सा) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, सांख्यिकी-विद्-सह-ज्येष्ठ प्राध्यापक (सामुदायिक चिकित्सा) (समुह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथाविनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	योग्यता के आधार पर चयन या चयन-सह-ज्येष्ठता अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
सांख्यिकी-विद्-सह-ज्येष्ठ प्राध्यापक (सामुदायिक चिकित्सा)	01* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननु-सचिवीय	14300-400-15900-450-18600-500-20100 रु.	लागू नहीं होता	पैंतालीस वर्ष से अधिक नहीं। (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	नहीं
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं				सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो।	
आवश्यक : क. (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.एस.सी. (सांख्यिकी) या समतुल्य।				लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	

(ii) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/संस्थान/आयुर्विज्ञान स्वशासी संगठन में जैव सांख्यिकी में पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव।

या

ख. (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम.एस.सी. (सांख्यिकी) और पी-एच.डी. (जैव सांख्यिकी या आचरण विज्ञान)।

(ii) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/संस्थान/आयुर्विज्ञान स्वशासी संगठन से जैव सांख्यिकी में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।

टिप्पण 1 :—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्थित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2 :—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
11	12
सीधी भर्ती	लागू नहीं होता
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति :	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
1. गृह सचिव, चंडीगढ़, प्रशासन — अध्यक्ष 2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन — सदस्य 3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ — सदस्य 4. संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ — सदस्य	

[फा. सं. वी-24011/12/2002-एम ई डेस्क-II]

एस. के. मिश्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd January, 2003

G.S.R. 57.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Statistician-cum-Senior Lecturer (Community Medicine) in the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Statistician-cum-Senior Lecturer (Community Medicine) (Group 'A' Gazetted Post) Recruitment Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. These rules shall apply to the post as specified in column (I) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said, Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said schedule.

5. **Disqualification.**—No person—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person, the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection by merit or Selection-cum-seniority or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6	7
Statistician-cum-Senior Lecturer (Community Medicine)	01* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 14,300-400-15,900-450-18,600-500-20-100	Not applicable	Not exceeding forty five years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep).	No

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
8	9	10	11
<p>Essential : A (i) M. Sc. (Statistics) from a recognized University/institution or equivalent. (ii) Five year's teaching experience in bio-statistics in a recognized Medical College/Institution/Medical Autonomous Organisation. OR (i) M.Sc. (Statistics) with Ph.D. (Bio-Statistics or Behavioral Science) from a recognised University/Institution or equivalent. (ii) Three years' teaching experience in Bio-Statistics from a recognised Medical College/Institution/Medical Autonomous Organisation.</p> <p>Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p>	Not applicable	One year for direct recruits	Direct recruitment

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making Recruitment
12	13	14
Not applicable	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for Considering Confirmation) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Home Secretary, Chandigarh Administration. —Chairman 2. Secretary, Medical Education and Research, Chandigarh Administration. —Member 3. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh. —Member 4. Professor and Head of the concerned Department of Government Medical College and Hospital, Chandigarh. —Member 	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[No. V-24011/12/2002-ME Desk-II]

S.K. MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2003

सा. का. नि. 58.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में ज्येष्ठ प्राध्यापक (रोग लक्षण मनोविज्ञान) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ : ज्येष्ठ प्राध्यापक (रोग लक्षण मनोविज्ञान) (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथाविनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	योग्यता के आधार पर चयन या चयन-सह-ज्येष्ठता अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनु-ज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
ज्येष्ठ प्राध्यापक (रोग लक्षण मनोविज्ञान)	01* (2002)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	14300-400-15900-450 18150 रु.	लागू नहीं होता	पचास वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।	नहीं
टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्ष-द्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)						

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
8	9	10
आवश्यक : I. (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय एम.ए. (मनोविज्ञान) या समतुल्य। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पी.एच.डी. (रोग लक्षण मनोविज्ञान) और तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव। या ख. (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम. फिल. (रोग लक्षण मनोविज्ञान) और पांच वर्ष का वृत्तिक अनुभव। 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मानसिक विज्ञान या मनो-विज्ञान आयुर्विज्ञान में दो वर्ष का डिप्लोमा और पांच वर्ष का वृत्तिक अनुभव। टिप्पण 1—अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2 :—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	एक वर्ष
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	
11	12	
सीधे भर्ती	लागू नहीं होता	
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	
13	14	
पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति :	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।	
1. गृह सचिव, चंडीगढ़, प्रशासन —अध्यक्ष 2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन —सदस्य 3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ —सदस्य 4. संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ —सदस्य		

New Delhi, the 22nd January, 2003

G.S.R. .—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Lecturer (Clinical Psychology) in the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Senior Lecturer (Clinical Psychology) (Group 'A' Gazetted Post) Recruitment Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. These rules shall apply to the post as specified in column (1) of the Schedule Annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rules.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons

7. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of Pay	Whether selection by merit or Selection-cum-seniority or Non-selection post
1	2	3	4	5
Senior Lecturer (Clinical Psychology)	01* (2001) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 14300-400-15900-450-18150/-	Not applicable
Age limit for direct recruits		Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	
6	7	8		
Not exceeding fifty years (Relaxable for Government Servants upto five year's in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	No	Essential : (i) M.A. (Psychology) from a recognised University or equivalent. (ii) Ph. D. (Clinical Psychology) from a recognised University/Institution with		

6	7	8
<p>Note 1 : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>		<p>three year's professional experience. OR M. Phil. (Clinical Psychology) from a recognised University/Institution with five year's professional experience. OR Two year's Diploma in Mental Science or Psychological Medicine from a recognised University/Institution with five years professional experience.</p>

Note 1 :—Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 :—The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
9	10	11	12
Not applicable	One year	Direct recruitment	Not applicable
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition			Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
13			14
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for Considering Confirmation)			Consultation with Union Public Service Commission is necessary.
1. Home Secretary, Chandigarh Administration			—Chairman
2. Secretary, Medical Education and Research, Chandigarh Administration			—Member
3. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh			—Member
4. Professor and Head of the Concerned Department of Government Medical College and Hospital, Chandigarh			—Member

[F. No. V.24011/12/2002-ME Desk-II]

S.K. MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2003

सा. का. नि. 59.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में ज्येष्ठ प्राध्यापक सह-जानपदिक रोग विज्ञानी समूह 'क' राजपत्रित पद (सामुदायिक चिकित्सा) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, ज्येष्ठ प्राध्यापक सह-जानपदिक रोग विज्ञानी (सामुदायिक चिकित्सा) (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथाविनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि** :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता** : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति** :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	योग्यता के आधार पर चयन या चयन-सह-ज्येष्ठता अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
ज्येष्ठ प्राध्यापक सह-जानपदिक रोग विज्ञानी (सामुदायिक चिकित्सा)	01* (2002)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित परिवर्तन किया जा सकता है। सचिवीय	14300-400-15900-450 18600-500-20100 रु.	लागू नहीं होता	पैंतालीस वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	नहीं
				टिप्पणी : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)		

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
8	9	10
<p>आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूची में सम्मिलित कोई मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्हता और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए।</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम.डी. (सामाजिक और निवारक आयुर्विज्ञान)/एम.डी. (सामाजिक और निवारक आयुर्विज्ञान) या समतुल्य।</p> <p>(iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में किसी मान्यताप्राप्त सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में प्राध्यापक/रजिस्ट्रार/सीनियर रेजिडेंट/परिदर्शक/ट्यूटर के रूप में 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव।</p> <p>(iv) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/संस्थान/आयुर्विज्ञान स्वशासी संगठन से जैव सांख्यिकी में 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2 :—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>	लागू नहीं होता।	एक वर्ष
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	
11	12	
सीधी भर्ती	लागू नहीं होता	
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
13	14	
<p>पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति :</p> <p>1. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन —अध्यक्ष</p> <p>2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन —सदस्य</p> <p>3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ —सदस्य</p> <p>4. संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ —सदस्य</p>	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।	

New Delhi, the 22nd January, 2003

G.S.R. 59.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Lecturer-cum-Epidemiologist (Community Medicine) in the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Senior Lecturer-cum-Epidemiologist (Community Medicine) (Group 'A' Gazetted Post) Recruitment Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. These rules shall apply to the post as specified in column (1) of the Schedule Annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of Pay	Whether selection by merit or Selection-cum-seniority or Non-selection post
1	2	3	4	5
Senior Lecturer-cum-Epidemiologist (Community Medicine)	01* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 14300-400-15900-450-18150 PLUS Non Practicing Allowance.	Not applicable

6	7	8
Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
Not exceeding fifty years (Relaxable for Government Servants upto five year's in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	No	Essential : (i) A basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register. (ii) M.D. (Social and Preventive Medicine)/ M.D. (Community Medicine) from a recognized University/Institution or equivalent. (iii) Three year's teaching experience in the concerned speciality after acquiring postgraduate qualification as Lecturer/ Registrar/Senior Resident/Demonstrator/ Tutor in a recognized Medical College/ Teaching Institution. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes. If, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
9	10	11	12
Not applicable	One year	Direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
---	---

13	14
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for Considering Confirmation) :— 1. Home Secretary, Chandigarh Administration 2. Secretary, Medical Education and Research, Chandigarh Administration 3. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh 4. Professor and Head of the Concerned Department of Government Medical College and Hospital, Chandigarh	Consultation with Union Public Service Commission is necessary. —Chairman —Member —Member —Member

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2003

सा.का.नि. 60.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में आचार्य (प्रतिरक्षा-रुधिर विज्ञान और रक्ताधान), उपाचार्य (प्रतिरक्षा-रुधिर विज्ञान और रक्ताधान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (प्रतिरक्षा-रुधिर विज्ञान और रक्ताधान) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बगते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (प्रतिरक्षा-रुधिर विज्ञान और रक्ताधान), उपाचार्य (प्रतिरक्षा-रुधिर विज्ञान और रक्ताधान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (प्रतिरक्षा-रुधिर विज्ञान और रक्ताधान) (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथाविनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि** :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निर्हता** :—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति** :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	योग्यता के आधार पर चयन या चयन-सह-ज्येष्ठता अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनु-ज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
आचार्य (प्रतिरक्षा रुधिर विज्ञान और रक्ताधान)	1* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' और राजपत्रित अननु- सचिवीय	18600-500- 22100 रु. और प्रेक्टिस बंदी भत्ता	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अधिक नहीं सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेवालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	हां

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

8

9

10

आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय की या समतुल्य अर्हता और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए।

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से डी.एम. (प्रतिरक्षा विज्ञान) या एम.डी. (प्रतिरक्षा-रूधिर विज्ञान और रक्ताधान)/एम.डी. (विकृति विज्ञान या जीवाणु विज्ञान या रूधिर विज्ञान) या समतुल्य प्रतिरक्षा-रूधिर विज्ञान और रक्ताधान विभाग में दो वर्ष शिक्षण अनुभव या विशेष प्रशिक्षण।

(iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वृत्ति में 10 वर्ष का अनुभव जिसमें 4 वर्ष का अनुभव किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में उपाचार्य/सहयुक्त आचार्य के रूप में होना चाहिए।

टिप्पण 1 :—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्थित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2 :—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

वांछनीय :—इनडैक्स मैडिक्स/राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमांकित कम से कम चार अनुसंधान प्रकाशन और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में एक अनुसंधान प्रकाशन हो।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

11

12

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंगत अल्पकालिक संविदा भी हैं) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंगत अल्पकालिक संविदा भी हैं) :

I. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कानूनी निकायों/स्वशासी संगठनों/अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी :—
(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने 16400-20000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 2 वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हैं।

II. उपाचार्य (प्रतिरक्षा-रूधिर विज्ञान और रक्ताधान) की श्रेणी में ऐसे विभागीय अधिकारी पर भी जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा ही है, बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया

12

जाएगा और यदि उसका पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।
पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए :

प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1. गृह सचिव, चंडीगढ़, प्रशासन — अध्यक्ष
2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन — सदस्य
3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ — सदस्य

1	2	3	4	5	6	7
उपाचार्य (प्रतिरक्षा रूधिर विज्ञान और रक्ताधान)	1* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननु- सचिवीय	16350-450-18600-500-20100 रु. और प्रैक्टिस बंदी भत्ता	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अधिक नहीं। सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	नहीं

8

9

10

आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिपद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्हता और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए।

आयु : नहीं
शैक्षिक अर्हताएं : हां

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से डी.एम.(प्रतिरक्षा विज्ञान) या एम.डी. (प्रतिरक्षा-रूधिर विज्ञान और रक्ताधान)/एम.डी. (विकृति विज्ञान या जीवाणु विज्ञान या रूधिर विज्ञान) या समतुल्य प्रतिरक्षा-रूधिर विज्ञान और रक्ताधान विभाग में दो वर्ष शिक्षण अनुभव या विशेष प्रशिक्षण।

(iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में सहायक आचार्य/ज्येष्ठ प्राध्यापक के रूप में 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव।

टिप्पणी :—अर्हताएं अन्यथा सुअर्थित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पणी 2:—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

वांछनीय : इनडैक्स मैडिक्स/राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमंकित कम से कम चार अनुसंधान प्रकाशन।

11

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)
जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

12

प्रोन्नति : ऐसे ज्येष्ठ प्राध्यापक (प्रतिरक्षा-रूधिर विज्ञान और रक्ताधान) जिन्होंने उस श्रेणी में 2 वर्ष सेवा की है।

प्रतिनियुक्ति (प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

I. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कानूनी निकायों/स्वशासी संगठनों/अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी :—

(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;

या

(ii) जिन्होंने 14300-18300 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 2 वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हैं।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए :

- | | |
|--|----------|
| 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग | —अध्यक्ष |
| 2. गृह सचिव, चंडीगढ़, प्रशासन | —सदस्य |
| 3. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन | —सदस्य |
| 4. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ | —सदस्य |

14

प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6	7
ज्येष्ठ प्राध्यापक (प्रतिरक्षा रूधिर विज्ञान और रक्ताधान)	3* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननु- सचिवीय	14300-400- 15900-450- 18150 रु. और प्रैक्टिस- बंदी भत्ता	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अधिक नहीं सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	नहीं
8					9	10
<p>आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूचियों में सम्मिलित कोई मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्हता और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए।</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से डी.एम.(प्रतिरक्षा विज्ञान) या एम.डी. (प्रतिरक्षा-रूधिर विज्ञान और रक्ताधान)/एम.डी. (विकृति विज्ञान या जीवाणु विज्ञान या रूधिर विज्ञान) या समतुल्य प्रतिरक्षा-रूधिर विज्ञान और रक्ताधान विभाग में दो वर्ष शिक्षण अनुभव या विशेष प्रशिक्षण।</p> <p>(iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में किसी मान्यताप्राप्त सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में प्राध्यापक/रजिस्ट्रार/सीनियर रेजिडेंट/परिदर्शक/ट्यूटर के रूप में 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1:—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्थित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण 2:—अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>					लागू नहीं होता	एक वर्ष
11					12	
सीधी भर्ती द्वारा					लागू नहीं होता	
13					14	
<p>पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति :</p> <p>1. गृह सचिव, चंडीगढ़, प्रशासन —अध्यक्ष</p> <p>2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन —सदस्य</p> <p>3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ —सदस्य</p> <p>4. संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ —सदस्य</p>					प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।	

New Delhi, the 22nd January, 2003

G.S.R. 60.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Professor (Immuno Haematology and Blood Transfusion), Reader (Immuno Haematology and Blood Transfusion) and Senior Lecturer (Immuno Haematology and Blood Transfusion) in the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, namely :—

1. Short title and commencement .—(1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Immuno Haematology and Blood Transfusion), Reader (Immuno Haematology and Blood Transfusion) and Senior Lecturer (Immuno Haematology and Blood Transfusion), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

5. Disqualification .—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules in respect to any class or category of persons.

7. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Professor (Immuno Haematology and Blood Transfusion)	01* (2002) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 18,600-500-22,100/- plus Non-practicing Allowance
Whether selection by merit or selection-cum-seniority or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	
(5)	(6)	(7)	
Not applicable	Not exceeding fifty years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications	Yes.	

(6)

from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)	(11)
Essential : (i) A basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register; (ii) D.M. (Immunology) or M.D. (Immuno Haematology and Blood Transfusion)/ M.D. (Pathology or Bacteriology or Haematology) with two year's teaching experience or special training in the Department of Immuno Haematology and Blood Transfusion from a recognized University/Institution or equivalent. (iii) Ten year's experience in the profession after acquiring postgraduate qualification, out of which four year's should be as Reader/Associate Professor in a Recognized Medical College/Teaching Institution.	Age : No Educational Qualifications : Yes	One year for direct recruits	Promotion/deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.

Note 1:

Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 :

The qualification(s) regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient

(8)

number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Desirable :

Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National Journals and one Research Publication in International Journals.

In case of recruitment by promotion/deputation absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)	(14)
Promotion/Deputation (including Short-term Contract)	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.
I. Officers of the Central/State Governments/ Union Territories/Statutory Bodies/Autonomous Organizations/Research Institutions :—	1. Home Secretary, Chandigarh Administration—Chairman	
(a) (i) holding analogous posts on regular basis	2. Secretary, Medical Education and Research, Chandigarh Administration—Member	
OR	3. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh—Member	
(ii) with two years' regular service in posts in the scale of pay of Rs. 16400–20000/- or equivalent; and		
(b) possessing the educational and other qualifications prescribed for direct recruits under column (8).		
II. The Departmental Officer in the grade of Reader (Immuno Haematology and Blood Transfusion) with two years' regular service in the grade will also be considered alongwith outsiders and in case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.		
The Departmental Officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		
(Period of Deputation/Contract including period of Deputation/Contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government, shall ordinarily not exceed five years'. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six year's as on the closing date of the receipt of application).		

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Reader (Immuno Haematology and Blood Transfusion)	01* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 16,350-450-18,600-500- 20,100/- plus Non-practicing Allowance

(5)	(6)	(7)
Selection by merit.	Not exceeding fifty years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).	Yes

(8)	(9)	(10)	(11)
Essential : (i) A basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register; (ii) D.M. (Immunology) or M.D. (Immuno Haematology and Blood Transfusion)/ M.D. (Pathology or Bacteriology or Haematology) with two years' teaching experience or special training in the Department of Immuno Haematology and Blood Transfusion from a recognized University/Institution or equivalent. (iii) Five years' teaching experience in the concerned speciality after acquiring postgraduate qualification as Assistant Professor/Senior Lecturer/Lecturer in a Recognized Medical College/Teaching Institution.	Age : No Educational Qualifica- tions : Yes	One year for direct recruits	Promotion, failing which by deputation (includ- ing short term contract) failing both by direct recruitment.

Note 1:

Qualifications are relaxable at the discretion
of the Union Public Service Commission in
case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 :

The qualification(s) regarding experience is/
are relaxable at the discretion of the Union
Public Service Commission in the case of

(8)

candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Desirable :

Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National Journals.

(12)	(13)	(14)
<p>Promotion : Senior Lecturer (Immuno Haematology and Blood Transfusion) with two year's regular service in the grade.</p> <p>Deputation (including short term contract) : Officers of Central/State Governments/Union Territories/Statutory Bodies/Autonomous Organizations/Research Institutions :—</p> <p>(a)(i) holding analogous posts on regular basis.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>(ii) with two year's regular service in posts in the scale of pay of Rs. 14300-18300/- or equivalent; and</p> <p>(b) possessing the educational and other qualifications prescribed for direct recruits under column (8).</p> <p>The Departmental Officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of Deputation/Contract including period of Deputation/Contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government, shall ordinarily not exceed five year's. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six year's as on the closing date of the receipt of applications).</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman Home Secretary, Chandigarh Administration—Member Secretary, Medical Education and Research, Chandigarh Administration—Member. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh —Member 	<p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation (including short-term contract).</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Senior Lecturer (Immuno Haematology and Blood Transfusion)	03* (2002) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 14,300-400-15,900-450-18,150/- plus Non-practicing Allowance.

(5)	(6)	(7)
Not applicable	Not exceeding fifty year's. (Relaxable for Government servants upto five year's in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	No.

(8)	(9)	(10)	(11)
Essential :	Not application	One year	Direct recruitment
(i) A basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.			
(ii) D.M. (Immunology) or M.D. (Immuno Haematology and Blood Transfusion)/ M.D. (Pathology or Bacteriology or Haematology) with two year's teaching experience or special training in the Department of Immuno Haematology and Blood Transfusion from a recognized University/Institution or equivalent.			
(iii) Three year's teaching experience in the concerned speciality after acquiring post-graduate qualification as Lecturer/ Registrar/Senior Resident/Demonstrator/ Tutor in a recognized Medical College/ Teaching Institution.			

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Service

(8)

Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

(12)	(13)	(14)
Not applicable	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) : 1. Home Secretary, Chandigarh Administration—Chairman 2. Secretary, Medical Education and Research, Chandigarh Administration—Member 3. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh—Member. 4. Professor and Head of the concerned Department of Government Medical College and Hospital, Chandigarh—Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[No. V. 24011/12/2002-ME Desk-II]

S. K. MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2003

सा.का.नि. 61.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में आचार्य (सूक्ष्म जीव विज्ञान), उपाचार्य (सूक्ष्म जीव विज्ञान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (सूक्ष्म जीव विज्ञान) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (सूक्ष्म जीव विज्ञान), उपाचार्य (सूक्ष्म जीव विज्ञान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (सूक्ष्म जीव विज्ञान) भर्ती नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथाविनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	योग्यता के आधार पर चयन या चयन-सह-ज्येष्ठता अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
आचार्य (सूक्ष्म जीव विज्ञान)	01*(2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अनुसचिवीय	18600-500-22100 रु. और प्रैक्टिस-बंदी भत्ता	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अधिक नहीं। सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। टिप्पण 1 : ज्येष्ठ प्राध्यापकों, उपाचार्यों और आचार्यों की श्रेणी में शिक्षकों की संख्या इन श्रेणियों में पदों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 : आचार्य के पद को विभागाध्यक्ष के रूप में पदाभिहित होने की दशा में केवल मान्यताप्राप्त वाले आयुर्विज्ञान डिग्री अर्हता या समतुल्य अर्हता वाले शिक्षकों को ही पद पर नियुक्त किया जाएगा।	हां।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले
व्यक्तियों के लिए विहित आयु
और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत
व्यक्तियों की दशा में लागू
होंगी या नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

8	9	10
आवश्यक :	आयु : नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।
I. क(i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्व-विद्यालय या समतुल्य अर्हता और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए।	शैक्षिक अर्हताएं : हां	
(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.डी. (जीवाणु विज्ञान)/एम.डी. (सूक्ष्म जीव विज्ञान)/एम.बी.बी.एस. साथ ही एम.एस.सी. (आयुर्विज्ञान और जीवाणु विज्ञान) या एम.एस.सी. (आयुर्विज्ञान सूक्ष्म विज्ञान) या समतुल्य।		
या		
ख(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एस.सी. (आयुर्विज्ञान जीवाणु विज्ञान) या समतुल्य।		
(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से पी.एच.डी. (आयुर्विज्ञान जीवाणु विज्ञान)/बी.एस.सी. (आयुर्विज्ञान जीवाणु विज्ञान) या समतुल्य।		
या		
ग(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एस.सी. (आयुर्विज्ञान सूक्ष्म जीव विज्ञान) या समतुल्य।		
(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से पी.एच.डी. (आयुर्विज्ञान सूक्ष्म जीव विज्ञान)/बी.एस.सी. (आयुर्विज्ञान सूक्ष्म जीव विज्ञान) या समतुल्य।		
II. स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वृत्ति में 10 वर्ष का अनुभव जिसमें 4 वर्ष का अनुभव किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में उपाचार्य/सहयुक्त आचार्य के रूप में होना चाहिए।		
टिप्पण 1 :— अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।		
टिप्पण 2 :— अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		
वांछनीय :— इनडैक्स मैडिक्स/राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमांकित कम से कम चार अनुसंधान प्रकाशन और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में एक अनुसंधान प्रकाशन हो।		

भर्ती की प्रकृति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न प्रकृतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

11

12

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

I. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कानूनी निकायों/स्वशासी संगठनों/ अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी :—

(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने 16400-20000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 2 वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हैं।

II. उपाचार्य (सूक्ष्म जीव विज्ञान) की श्रेणी में ऐसे विभागीय अधिकारी पर भी जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है, बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उसका पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा समझा जाएगा।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति :

प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन —अध्यक्ष
2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन —सदस्य
3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ —सदस्य

1	2	3	4	5	6	7
उपाचार्य (सूक्ष्म जीव विज्ञान)	01*(2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	16350-450-18600-500-20100 रु. और प्रैक्टिस बंदी भत्ता	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अधिक नहीं। (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख	हां

6

भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

8

9

10

आवश्यक :

I-क(i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, 1956 (1956 का 102) की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्हता और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए।

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.डी. (जीवाणु विज्ञान)/एम.डी. (सूक्ष्म जीव विज्ञान)/एम.बी.बी.एस. साथ ही एम.एस.सी. (आयुर्विज्ञान जीवाणु विज्ञान) या एम.एस.सी. (आयुर्विज्ञान सूक्ष्म विज्ञान) या समतुल्य।

या

ख(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एस.सी. (आयुर्विज्ञान जीवाणु विज्ञान) या समतुल्य।

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से पी.एच.डी. (आयुर्विज्ञान जीवाणु विज्ञान)/बी.एस.सी. (आयुर्विज्ञान जीवाणु विज्ञान) या समतुल्य।

या

ग(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एस.सी. (आयुर्विज्ञान सूक्ष्म जीव विज्ञान) या समतुल्य।

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से पी.एच.डी. (आयुर्विज्ञान सूक्ष्म जीव विज्ञान)/डी.एस.सी. (आयुर्विज्ञान सूक्ष्म जीव विज्ञान) या समतुल्य।

(iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में सहायक आचार्य/ज्येष्ठ प्राध्यापक/प्राध्यापक के रूप में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव।

टिप्पण 1 :—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार की जा सकती हैं।

टिप्पण 2 :—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के

8

अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

वांछनीय :— इनडैक्स मैडिक्स/राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमांकित कम से कम चार अनुसंधान प्रकाशन।

11

12

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

I. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों/कानूनी निकायों/स्वशासी संगठनों/ अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी :—

(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने 14300-18300 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 2 वर्ष नियमित सेवा की है, और

(ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हैं।

II. प्राध्यापक की श्रेणी में ऐसे विभागीय अधिकारी पर भी जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है, बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उसका पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा समझा जाएगा।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13

14

पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति :

प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन

—अध्यक्ष

2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन—सदस्य

3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल,

चंडीगढ़

—सदस्य

4. संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष, सरकारी

आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल

—सदस्य

1	2	3	4	5	6	7
ज्येष्ठ प्राध्यापक (सूक्ष्म जीव विज्ञान)	02*(2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	14300-400-15900-450-18150 रु. और प्रैक्टिस बंदी भत्ता	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अधिक नहीं। सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।	नहीं।
<p>टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।</p>						

8	9	10
आवश्यक :	लागू नहीं होता	एक वर्ष
(i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1956 (1956 का 102) की अनुसूची में सम्मिलित कोई मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्हता और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए।		
(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.डी. (जीवाणु विज्ञान)/एम.डी. (सूक्ष्म जीव विज्ञान)/एम.बी.बी.एस. साथ ही एम.एस.सी. (आयुर्विज्ञान जीवाणु विज्ञान) या एम.एस.सी. (आयुर्विज्ञान सूक्ष्म विज्ञान) या समतुल्य।		
या		
ख(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एस.सी. (आयुर्विज्ञान जीवाणु विज्ञान) या समतुल्य।		

- (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से पी.एच.डी.
(आयुर्विज्ञान जीवाणु विज्ञान)/बी.एस.सी. (आयुर्विज्ञान
जीवाणु विज्ञान) या समतुल्य।

या

- ग(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एस.सी. (आयुर्विज्ञान
सूक्ष्म जीव विज्ञान) या समतुल्य।
- (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से पी.एच.डी.
(आयुर्विज्ञान सूक्ष्म जीव विज्ञान)/बी.एस.सी. (आयुर्विज्ञान
सूक्ष्म जीव विज्ञान) या समतुल्य।
- (iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता
में किसी मान्यताप्राप्त सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण
संस्था में प्राध्यापक/रजिस्ट्रार/सीनियर रेजिडेंट/ परिदर्शक/
ट्युअर के रूप में 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव।

टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक
सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग
के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के
अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के
किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए
आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन
समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना
नहीं है।

11	12
सीधी भर्ती	लागू नहीं होता
13	14
<p>(पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति) :</p>	
1. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन	—अध्यक्ष
2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन	—सदस्य
3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़	—सदस्य
4. संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़	—सदस्य

प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना
आवश्यक है।

New Delhi, the 27th January, 2003

G. S. R. 61.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Professor (Microbiology), Reader (Microbiology) and Senior Lecturer (Microbiology) in the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, namely :—

1. Short title and commencement .—(1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Microbiology), Reader (Microbiology) and Senior Lecturer (Microbiology), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said, Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

5. Disqualification .—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Professor (Microbiology)	01* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 18,600-500-22,100/- PLUS Non-practicing Allowance only for Medical Graduates
Whether selection by merit or Selection-cum-seniority or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added year's of Service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	
(5)	(6)	(7)	
Not applicable	Not exceeding 50 year's. (Relaxable for Government servants upto five year's in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications	Yes.	

(6)

from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Note 1—The Strength of teachers in the grade of Senior Lecturers, Readers and Professors with Non-Medical qualifications shall not exceed 30% of the total number of posts in these grades.

Note 2—In the event the post of Professor is designated as Head of Department, only teachers with recognised basic university medical degree qualification or equivalent qualification shall be appointed to the post.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)	(11)
<p>Essential :</p> <p>I-A(i) A basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register;</p> <p>A (ii) M.D. (Bacteriology) / M.D. (Microbiology)/M.B.B.S. with M.Sc. (Medical Bacteriology) or M.Sc. (Medical Microbiology) from a recognized University/Institution or equivalent.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>B. (i) M.Sc. (Medical Bacteriology) from a recognised University or equivalent.</p> <p>B. (ii) Ph.D. (Medical Bacteriology)/B.Sc. (Medical Bacteriology) from a recognised University/Institution or equivalent.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>C (i) M.Sc. (Medical Microbiology) from a recognised University/Institution or equivalent.</p>	<p>Age : No</p> <p>Educational Qualifications : Yes</p>	<p>One year direct recruits</p>	<p>Promotion/deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.</p>

(8)

C (ii) Ph.D. (Medical Microbiology)/D.Sc. (Medical Microbiology) from a recognized University/Institution or equivalent.

II. Ten year's experience in the profession after acquiring post-graduate qualification, out of which four year's should be as Reader/Associate Professor in a Recognized Medical College/Teaching Institution.

Note 1:

Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 :

The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Desirable :

Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National Journals and one Research Publication in International Journals.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making Recruitment
12	13	14
Promotion/Deputation (including Short-term Contract)	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.
I. Officers of the Central/State Governments/ Union Territories/Statutory Bodies/Autonomous Organizations/Research Institutions :—	1. Home Secretary, Chandigarh Administration —Chairman	
(a) (i) holding analogous posts on regular basis	2. Secretary, Medical Education and Research, Chandigarh Administration —Member	
OR	3. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh —Member	
(ii) with two year's regular service in posts in the scale of pay of Rs. 16400–20000/- or equivalent; and		
(b) possessing the educational and other qualifications prescribed for direct recruits under column (8).		

- II. The Departmental Officer in the grade of Reader (Microbiology) with two year's regular service in the grade will also be considered alongwith outsiders and in case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

The Departmental Officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of Deputation/Contract including period of Deputation/Contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government, shall ordinarily not exceed five year's. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six year's as on the closing date of the receipt of applications).

1	2	3	4
2. Reader (Microbiology)	01* (2002) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 16,350-450-18,600-500- 20,100/- PLUS Non-practicing Allowance for Medical Graduates

5	6	7
Not applicable	Not exceeding fifty year's. (Relaxable for Government servants upto five year's in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	Yes.

Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Note 1- The Strength of teachers in the grade of Senior Lecturers, Readers and Professors with Non-Medical qualifications shall not exceed 30% of the total number of posts in these grades.

(8)	(9)	(10)	(11)
Essential : I-A(i) A basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register; (ii) D.M. (Bacteriology) / M.D. (Microbiology)/M.B.B.S. with M.Sc. (Medical Bacteriology) or M.Sc. (Medical Microbiology) from a recognized University/Institution or equivalent.	Age : No Educational Qualifications : Yes	One year for direct recruits	Promotion/deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.
OR			
B. (i) M.Sc. (Medical Bacteriology) from a recognized University or equivalent. (ii) Ph.D. (Medical Bacteriology)/B.Sc. (Medical Bacteriology) from a recognized University/Institution or equivalent.			
OR			
C (i) M.Sc. (Medical Microbiology) from a recognized University/Institution or equivalent. (ii) Ph.D. (Medical Microbiology)/D.Sc. (Medical Microbiology) from a recognized University/Institution or equivalent.			
II. Five year's teaching experience in the concerned speciality after acquiring postgraduate qualification as Assistant Professor/Senior Lecturer/Lecturer in a recognized Medical College/Teaching Institution.			
Note 1:			
Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.			
Note 2 :			
The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.			
Desirable :			
Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National Journals.			

(12)	(13)	(14)
Promotion/Deputation (including Short-term Contract)	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.
I. Officers of the Central/State Governments/ Union Territories/Statutory Bodies/Autonomous Organizations/Research Institutions :— (a) (i) holding analogous posts on regular basis OR (ii) with two year's regular service in posts in the scale of pay of Rs. 14300-18300/- or equivalent; and (b) possessing the educational and other qualifications prescribed for direct recruits under column (8).	1. Home Secretary, Chandigarh Administration —Chairman 2. Secretary, Medical Education and Research, Chandigarh Administration —Member 3. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh —Member 4. Professor and Head of the Concerned Department of Government Medical College and Hospital, Chandigarh —Member	
II. The Departmental Officer in the grade of Senior Lecturer (Microbiology) with two year's regular service in the grade will also be considered alongwith outsiders and in case he/she is selected for appointment on the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.		
The Departmental Officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		
(Period of Deputation/Contract including period of Deputation/Contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government, shall ordinarily not exceed five year's. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six year's as on the closing date of the receipt of applications).		

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Senior Lecturer (Microbiology)	02* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 14,300-400-15,900-450- 18,150/- plus Non-practicing Allowance only for Medical Graduates
(5)	(6)	(7)	
Not applicable	Not exceeding fifty year's. (Relaxable for Government servants upto five year's in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	No	

(6)

Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Note 1: The Strength of teachers in the grade of Senior Lecturers, Readers and Professors with Non-Medical qualifications shall not exceed 30% of the total number of posts in these grades.

(8)	(9)	(10)	(11)
Essential :	Not applicable	One year	Direct recruitment
I-A(i) A basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.			
(ii) M.D. (Bacteriology) / M.D. (Microbiology)/M.B.B.S. with M.Sc. (Medical Bacteriology) or M.Sc. (Medical Microbiology) from a recognized University/Institution or equivalent.			
OR			
B. (i) M.Sc. (Medical Bacteriology) from a recognized University/Institution or equivalent.			
(ii) Ph.D. (Medical Bacteriology)/B.Sc. (Medical Bacteriology) from a recognized University/Institution or equivalent.			
OR			
C (i) M.Sc. (Medical Microbiology) from a recognized University/Institution or equivalent.			
(ii) Ph.D. (Medical Microbiology)/D.Sc. (Medical Microbiology) from a recognized University/Institution or equivalent.			
II. Three year's teaching experience in concerned speciality after acquiring postgraduate qualification as Lecturer/Registrar/Senior Resident/Demonstrator/Tutor in a Recognized Medical College/Teaching Institution.			

(8)

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

(12)	(13)	(14)
Not applicable	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) : 1. Home Secretary, Chandigarh Administration —Chairman 2. Secretary, Medical Education and Research, Chandigarh Administration —Member 3. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh —Member 4. Professor and Head of the concerned Department of Government Medical College and Hospital, Chandigarh —Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[No. V-24011/8/2002-ME Desk-II]
S.K. MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2003

सा. का. नि. 62.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में आचार्य (शरीर रचना विज्ञान), उपाचार्य (शरीर रचना विज्ञान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (शरीर रचना विज्ञान) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (शरीर रचना विज्ञान), उपाचार्य (शरीर रचना विज्ञान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (शरीर रचना विज्ञान) भर्ती नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथाविनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	योग्यता के आधार पर चयन या चयन-सह-ज्येष्ठता अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
आचार्य (शरीर रचना विज्ञान)	01*(2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	18600-500-22100 रु. और प्रैक्टिस-बंदी भत्ता	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अधिक नहीं। सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकारी द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	हां

6

टिप्पण 1 : गैर-आयुर्विज्ञान अर्हताओं सहित ज्येष्ठ प्राध्यापक, उपाचार्य और आचार्य की श्रेणी में शिक्षकों की संख्या इन श्रेणियों में पदों की कुल संख्या के तीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : आचार्य के पद को विभागाध्यक्ष के रूप में पदाभिहित होने की दशा में केवल मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान डिग्री अर्हता या समतुल्य अर्हता वाले शिक्षकों को ही पद पर नियुक्त किया जाएगा।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
--	--	-------------------------------

8

9

10

आवश्यक :

क (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्व-विद्यालय या समतुल्य अर्हता और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए।

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.डी. (शरीर रचना विज्ञान) या समतुल्य।

या

ख(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.एस.सी. (आयुर्विज्ञान शरीर रचना विज्ञान) या समतुल्य।

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से पी.एच.डी. (आयुर्विज्ञान शरीर रचना विज्ञान/डी.एस.सी. (आयुर्विज्ञान शरीर रचना विज्ञान) या समतुल्य।

II. स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वृत्ति में 10 वर्ष का अनुभव जिसमें 4 वर्ष का अनुभव किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में उपाचार्य/सहयुक्त आचार्य के रूप में होना चाहिए।

टिप्पण 1 :—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2 :—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

वांछनीय :—इनडैक्स मैडिक्स/राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमांकित कम से कम चार अनुसंधान प्रकाशन और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में एक अनुसंधान प्रकाशन हो।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

11

12

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

I. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कानूनी निकायों/स्वशासी संगठनों/ अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी :—

(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने 16400-20000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 2 वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हैं।

II. उपाचार्य (शरीर रचना विज्ञान) की श्रेणी में ऐसे विभागीय अधिकारी पर भी जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है, बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उसका पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा समझा जाएगा।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :

प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन —अध्यक्ष
2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन —सदस्य
3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ —सदस्य

1	2	3	4	5	6	7
उपाचार्य (शरीर रचना विज्ञान)	01*(2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अनुसचिवीय	16350-450-18600-500-20100 रु. और प्रैक्टिस बंदी भत्ता	योग्यता द्वारा चयन	50 वर्ष से अधिक नहीं। (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त	हां

करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

टिप्पण 1 : गैर-आयुर्विज्ञान अर्हताओं वाले ज्येष्ठ प्राध्यापकों, उपाचार्यों और आचार्यों की श्रेणी में शिक्षकों की संख्या इन श्रेणियों में पदों की कुल संख्या के तीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : आचार्य के पद को विभागाध्यक्ष के रूप में पदाभिहित होने की दशा में केवल मान्यताप्राप्त वाले आयुर्विज्ञान डिग्री अर्हता या समतुल्य अर्हता वाले शिक्षकों को ही पद पर नियुक्त किया जाएगा।

8	9	10
आवश्यक :	आयु : नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले
I-क(i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, 1956 (1956 का 102) की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्व-विद्यालय या समतुल्य अर्हता और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए।	शैक्षिक अर्हताएं : हां	और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।
(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.डी. (शरीर रचना विज्ञान)/एम.एस.सी. (शरीर रचना विज्ञान) के साथ एम.बी.बी.एस. या समतुल्य। या		
ख(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.एस.सी. (आयुर्विज्ञान शरीर रचना विज्ञान) या समतुल्य।		
(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से पी.एच.डी. (आयुर्विज्ञान शरीर रचना विज्ञान/डी.एस.सी. (आयुर्विज्ञान शरीर रचना विज्ञान) या समतुल्य।		
II. स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में सहायक आचार्य/ज्येष्ठ प्राध्यापक/प्राध्यापक के रूप में 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव।		

टिप्पण 1 :—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2 :—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

वांछनीय :—इन्डैक्स मैडिक्स/राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमंकित कम से कम चार अनुसंधान प्रकाशन।

11

12

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति : ऐसा ज्येष्ठ प्राध्यापक जिसने इस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है।

प्रतिनियुक्ति (प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

I. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कानूनी निकायों/स्वशासी संगठनों/ अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी :—

(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने 14300-18300 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 2 वर्ष नियमित सेवा की है, और

(ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हैं।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13

14

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए :

- | | |
|--|----------|
| 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग | —अध्यक्ष |
| 2. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन | —सदस्य |
| 3. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन | —सदस्य |
| 4. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ | —सदस्य |

सीधी भर्ती तथा प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6	7
ज्येष्ठ प्राध्यापक (शरीर रचना विज्ञान)	02*(2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	14300-400-15900-450-18150 रु. और प्रैक्टिस बंदी भत्ता	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अधिक नहीं। सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।	नहीं।

टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्पा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

टिप्पण 2 : ज्येष्ठ प्राध्यापकों, उपाचार्यों और आचार्यों की श्रेणी में शिक्षकों की संख्या इन श्रेणियों में पदों की कुल संख्या के तीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

8	9	10
आवश्यक :	लागू नहीं होता	एक वर्ष
(क)(i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूचियों में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्हता और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए।		
(क)(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम. डी. (शरीर रचना विज्ञान)/एम.एस.सी. (शरीर रचना विज्ञान) के साथ एम.बी.बी.एस. या समतुल्य।		
या		
(ख)(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से (आयुर्विज्ञान शरीर रचना विज्ञान) में एम.एस.सी. या समतुल्य।		
(ख)(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से पी.एच.डी. (आयुर्विज्ञान शरीर रचना विज्ञान/डी.एस.सी. (आयुर्विज्ञान शरीर रचना विज्ञान) या समतुल्य।		

(ख)(ii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में किसी मान्यताप्राप्त सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में प्राध्यापक/रजिस्ट्रार/सीनियर रेजिडेंट/परिदर्शक/ट्यूटर के रूप में 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव।

टिप्पण 1 :—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2 :—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

11

12

सीधी भर्ती द्वारा

लागू नहीं होता

13

14

पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति :

प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

- | | |
|---|----------|
| 1. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन | —अध्यक्ष |
| 2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन | —सदस्य |
| 3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ | —सदस्य |
| 4. संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ | — सदस्य |

[फ़. सं. बी-24011/8/2002-एम ई डैस्क-II]

एस. के. मिश्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 29th January, 2003

G.S.R. 62.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Professor (Anatomy), Reader (Anatomy) and Senior Lecturer (Anatomy) in the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, namely :—

1. Short title and commencement .—(1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Anatomy), Reader (Anatomy) and Senior Lecturer (Anatomy), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said, Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualification etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

5. Disqualification .—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

7. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Professor (Anatomy)	01* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A', Gazetted Non-Ministerial	Rs. 18,600-500-22, 100/- PLUS Non-practising Allowance only for Medical Grades
Whether selection by merit or Selection-cum-seniority or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	
(5)	(6)	(7)	
Not applicable	Not exceeding fifty years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date	Yes	

6

prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Note 1:—The Strength of teachers in the grade of Senior Lecturers, Readers and Professors with Non-Medical qualifications shall not exceed 30% of the total number of posts in these grades.

Note 2 :—In the event the post of Professor is designated as Head of Department, only teachers with recognised basic University Medical Degree Qualification or equivalent Qualification shall be appointed to the post.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)	(11)
<p>Essential :</p> <p>I-A(i) A basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register;</p> <p>A (ii) M.S. (Anatomy) / M.D. (Anatomy)/ M.B.B.S. with M.Sc. (Anatomy) from a recognized University/Institution or equivalent.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>B. (i) M. Sc. (Medical Anatomy) from a recognized University or equivalent.</p> <p>B: (ii) Ph.D. (Medical Anatomy)/D.Sc. (Medical Anatomy) from a recognized University/ Institution or equivalent.</p> <p>II. Ten year's experience in the profession after acquiring postgraduate qualification, out of which four year's should be as Reader/Associate Professor in a Recognized Medical College/Teaching Institution.</p>	<p>Age : No</p> <p>Educational Qualifications : Yes</p>	<p>One year for direct recruits</p>	<p>Promotion/deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.</p>

(8)

Note 1:

Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 :

The qualification(s) regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Desirable :

Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National Journals and one Research Publication in International Journals.

In case of recruitment by promotion/deputations/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making Recruitment
(12)	(13)	(14)
Promotion/Deputation (including Short-term Contract)	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.
I. Officers of the Central/State Governments/ Union Territories/Statutory Bodies/Autonomous Organizations/Research Institutions :—	1. Home Secretary, Chandigarh Administration —Chairman	
(a) (i) holding analogous posts on regular basis	2. Secretary, Medical Education and Research, Chandigarh Administration —Member	
OR	3. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh —Member	
(ii) with two years' regular service in posts in the scale of pay of Rs. 16400–20000/- or equivalent; and		
(b) possessing the educational and other qualifications prescribed for direct recruits under column (8).		
II. The Departmental Officer in the grade of Reader with two years' regular service in the grade will also be considered alongwith outsiders and in case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.		
The Departmental Officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		

(12)

(Period of deputation/contract including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government, shall ordinarily not exceed five years'. The minimum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six year's as on the closing date of receipt of applications).

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Reader (Anatomy)	01* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 16,350-450-18,600-500- 20,100/- PLUS Non-practicing Allowance Only for Medical Graduates.

(5)	(6)	(7)
Selection by merit.	Not exceeding fifty year's. (Relaxable for Government servants upto five year's in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 1-The Strength of Teachers in the grade of Senior Lecturers, Readers and Professors with Non-Medical Qualifications shall not exceed 30% of the total number of posts in these grades.	Yes

(8)	(9)	(10)	(11)
Essential : I-A(i) A basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register;	Age : No Educational Qualifica- tions : Yes	One year for direct recruits and Promotees.	Promotion, failing which by deputation (including short term contract) failing both by direct recruitment.
A (ii) M.S. (Anatomy) / M.D. (Anatomy)/ M.B.B.S. with M.Sc. (Anatomy) from a			

8

recognized University/Institution or equivalent.

OR

B. (i) M.Sc. (Medical Anatomy) from a recognized University or equivalent.

B. (ii) Ph.D. (Medical Anatomy)/D.Sc. (Medical Anatomy) from a recognized University/Institution or equivalent.

II. Five year's teaching experience in the concerned speciality after acquiring postgraduate qualification out of which three years should be as Assistant Professor/Senior Lecturer/Lecturer in a recognized Medical College/Teaching Institution.

Note 1:

Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 :

The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Desirable :—

Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National Journals.

(12)	(13)	(14)
Promotion : Senior Lecturer with two year's regular service in the grade. Deputation (Including short-Term contract) Officers of the Central/State Governments/Union Territories/Statutory Bodies/Autonomous Organizations/Research Institutions :— Chandigarh Administration. (a) (i) holding analogous posts on regular basis <p style="text-align: center;">OR</p> (ii) with two year's regular service in posts in the scale of pay of Rs. 14300-18300/- or equivalent; and	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) : 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman 2. Home Secretary, —Member 3. Secretary, Medical Education and Research, Chandigarh Administration —Member 4. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh—Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation (including short-term contract).

(12)

- (b) possessing the educational and other qualifications prescribed for direct recruit under column (8).

The Departmental Officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

[Period of Deputation/Contract including period of Deputation/Contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government, shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications].

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Senior Lecturer (Anatomy)	02* (2002) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 14,300-400-15,900-450-18,150/- PLUS Non-practicing Allowance only for Medical Graduates

(5)	(6)	(7)
Not applicable	Not exceeding fifty year's. (Relaxable for Government servants upto five year's in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 1-The Strength of teachers in the grade of Senior Lecturers, Readers and Professors with Non-Medical Qualifications shall not exceed 30% of the total number of posts in these grades.	No

(8)	(9)	(10)	(11)
Essential : I-A(i) A basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register ; A (ii) M.S. (Anatomy)/M.D. (Anatomy)/M.B.B.S. with M.Sc. (Anatomy) from a recognized University/Institution or equivalent. <p style="text-align: center;">OR</p> B. (i) M.Sc. (Medical Anatomy) from a recognized University or equivalent. B. (ii) Ph.D. (Medical Anatomy)/D.Sc. (Medical Anatomy) from a recognized University/Institution or equivalent. (iii) Three year's teaching experience in concerned speciality after acquiring postgraduate qualification as Lecturer/Registrar/Senior Resident/Demonstrator/Tutor in a Recognized Medical College/Teaching Institution.	Not applicable	One year	Direct recruitment
Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.			

(12)	(13)	(14)
Not applicable	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) : 1. Home Secretary, Chandigarh Administration —Chairman 2. Secretary, Medical Education and Research, Chandigarh Administration —Member 3. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh —Member 4. Professor and Head of the concerned Department of Government Medical College and Hospital, Chandigarh —Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[No. V-24011/8/2002-ME Desk-II]
S. K. MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2003

सा.का.नि. 63.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में आचार्य (संवेदनाहरण), उपाचार्य (संवेदनाहरण) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (संवेदनाहरण) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (संवेदनाहरण), उपाचार्य (संवेदनाहरण) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (संवेदनाहरण) भर्ती नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथाविनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 तक विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	योग्यता के आधार पर चयन या चयन-सह-ज्येष्ठता अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
आचार्य (संवेदनाहरण विज्ञान)	01*(2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अनुसूचिवीय	18600-500-22100 रु. और प्रैक्टिस-बंदी भत्ता	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अधिक नहीं। सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम	हां

तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10

आवश्यक :

- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का का 102) की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्व-विद्यालय या समतुल्य अर्हता और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए।
- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.डी. (संवेदनाहरण विज्ञान)/एम.एस. (संवेदनाहरण विज्ञान) या समतुल्य।
- स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वृत्ति में 10 वर्ष का अनुभव जिसमें 4 वर्ष का अनुभव किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में उपाचार्य/सहयुक्त आचार्य के रूप में होना चाहिए।

आयु : नहीं

शैक्षिक अर्हताएं : हां

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।

टिप्पण 1 :—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2 :—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

वांछनीय :—इनडैक्स मैडिक्स/राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमांकित कम से कम चार अनुसंधान प्रकाशन और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में एक अनुसंधान प्रकाशन हो।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

11

12

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

I. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कानूनी निकायों/स्वशासी संगठनों/अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी :—

(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने 16400-20000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 2 वर्ष नियमित सेवा की है, और

(ख) जिनके पास स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हैं।

II. उपाचार्य (संवेदनाहरण विज्ञान) की श्रेणी में ऐसे विभागीय अधिकारी पर भी जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है, बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उसका पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा समझा जाएगा।

पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए :-

प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन—अध्यक्ष
2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन—सदस्य
3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़—सदस्य

1	2	3	4	5	6	7
उपाचार्य (संवेदनाहरण विज्ञान)	01*(2002) साधारण केन्द्रीय *कार्यभार सेवा समूह के आधार 'क' राजपत्रित पर परिवर्तन अननुसचिवीय किया जा जा सकता है।	16350-450-18600-500-20100 रु. और प्रैक्टिस बंदी भत्ता	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अधिक नहीं। सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।	हां	
				टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त		

6

करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं)।

8	9	10
<p>आवश्यक :</p> <p>(i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, 1956 (1956 का 102) की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्हता और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए।</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.डी. (संवेदनाहरण विज्ञान)/एम.एस. (संवेदनाहरण विज्ञान) या समतुल्य।</p> <p>(iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में सहायक आचार्य/ज्येष्ठ प्राध्यापक/प्राध्यापक के रूप में 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1 :—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2 :—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p> <p>वांछनीय :—इनडैक्स मैडिक्स/राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमान्वित कम से कम चार अनुसंधान प्रकाशन।</p>	<p>आयु : नहीं</p> <p>शैक्षिक अर्हताएं : हां</p>	<p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।</p>

11

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

12

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

I. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कानूनी निकायों/स्वशासी संगठनों/ अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी :—

(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

12

(ii) जिन्होंने 14300-18300 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 2 वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हैं।

II. ज्येष्ठ प्राध्यापक की श्रेणी में ऐसे विभागीय अधिकारी पर भी जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है, बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उसका पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी) वांछनीय : इन्डैक्स मैडिक्स/राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमांकित कम से कम चार अनुसंधान प्रकाशन।

13

14

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए :

1. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन—अध्यक्ष
2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन—सदस्य
3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़—सदस्य
4. संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल—सदस्य

प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6	7
ज्येष्ठ प्राध्यापक (संवेदनाहरण विज्ञान)	01*(2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	14300-400-15900-450-18150 रु. और प्रैक्टिस बंदी भत्ता	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अधिक नहीं। सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-	नहीं।

6

कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड,
हिमाचल प्रदेश के लाहोल और
स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के
पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार
द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के
लिए विहित की गई हैं।

8	9	10
आवश्यक :	लागू नहीं होता	एक वर्ष
<p>(i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1956 (1956 का 102) की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्हता और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए।</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.डी. (संवेदनाहरण विज्ञान)/एम.एस. (संवेदनाहरण विज्ञान) या समतुल्य।</p> <p>(iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में किसी मान्यताप्राप्त सरकारी आयुर्विज्ञान महा-विद्यालय/शिक्षण संस्था में प्राध्यापक/रजिस्ट्रार/सीनियर रेजिडेंट/परिदर्शक/टयुटर के रूप में 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1 :—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2 :—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>		
11	12	
सीधी भर्ती	लागू नहीं होता	
13	14	
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए :	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।	
<p>1. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन—अध्यक्ष</p> <p>2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन—सदस्य</p> <p>3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़—सदस्य</p> <p>4. संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ — सदस्य</p>		

[फा. सं. वी-24011/8/2002-एम ई डैस्क-II]

एस. के. मिश्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 29th January, 2003

G.S.R. 63.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of **Professor (Anaesthesiology), Reader (Anaesthesiology) and Senior Lecturer (Anaesthesiology)** in the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, namely :—

1. Short title and commencement .—(1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, **Professor (Anaesthesiology), Reader (Anaesthesiology) and Senior Lecturer (Anaesthesiology), Group 'A' Gazetted Posts, Recruitment Rules, 2002.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

5. Disqualification .—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules in respect to any class or category of persons.

7. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay
1	2	3	4
1. Professor (Anaesthesiology)	01* (2002) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 18,600-500-22,100/- PLUS Non-practicing Allowance
Whether selection by merit or selection-cum-seniority or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added year's of Service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	
5	6	7	
Not applicable	Not exceeding fifty year's. (Relaxable for Government servants upto five year's in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Yes	

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
8	9	10	11
Essential : (i) A basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register; (ii) M.D. (Anaesthesiology)/M.S. (Anaesthesiology) from a recognized University/Institution or equivalent. (iii) Ten year's experience in the profession after acquiring postgraduate qualification, out of which four year's should be as Reader/Associate Professor in a Recognized Medical College/Teaching Institution.	Age : No Educational Qualifications : Yes	One year for direct recruits	Promotion/deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.
Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.			
Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.			
Desirable : Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National Journals and one Research Publication in International Journals.			

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making Recruitment
12	13	14
Promotion/Deputation (including Short-term Contract) I. Officers of the Central/State Governments/Union Territories/Statutory Bodies/Autonomous Organizations/Research	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) : 1. Home Secretary, Chandigarh Administration—Chairman	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

12
13

Institutions :—

(a) (i) holding analogous posts on regular basis
or
(ii) with two year's regular service in posts in the scale of pay of Rs. 16400–20000 or equivalent; and

(b) possessing the educational and other qualifications prescribed for direct recruits under column (8).

II. The Departmental Officer in the grade of Reader with two year's regular service in the grade will also be considered alongwith outsiders. In case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

The Departmental Officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of Deputation/Contract including period of Deputation/Contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government, shall ordinarily not exceed five year's. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years' as on the closing date of the receipt of application).

2. Secretary, Medical Education and Research, Chandigarh Administration —Member

3. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh —Member

1	2	3	4
2. Reader (Anaesthesiology)	01* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 16,350-450-18,600-500-20,100 Plus Non-practicing Allowance
5	6	7	
Not applicable.	Not exceeding fifty years. (Relaxable for Government servants upto five year's in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Yes	
8	9	10	11

Essential :	Age : No Educational Qualifications : Yes	One year for direct recruits	Promotion/deputation (including short term contract) failing both by direct recruitment.
(i) A basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register;			
(ii) M.D. (Anaesthesiology)/M.S. (Anaesthesiology) from a recognized University/Institution or equivalent.			
(iii) Five year's teaching experience in the concerned speciality after acquiring postgraduate qualification as Assistant Professor/Senior Lecturer/Lecturer in a Recognized Medical College/Teaching Institution.			

Note 1:

Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 :

The qualification(s) regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Desirable :

Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National Journals.

12	13	14
Promotion/Deputation (including Short-term Contract)	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.
(1) Officers of the Central/State Governments/ Union Territories/Statutory Bodies/Autonomous Organizations/Research Institutions :—	1. Home Secretary, Chandigarh Administration —Chairman	
(a) (i) holding analogous posts on regular basis	2. Secretary, Medical Education and Research, Chandigarh Administration —Member	
or	3. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh —Member	
(ii) with two year's regular service in posts in the scale of pay of Rs. 14300–18300 or equivalent; and	4. Professor and Head of the concerned Department of Government Medical College and Hospital, Chandigarh—Member	
(b) possessing the educational and other qualifications prescribed for direct recruits under column (8).		

- (2) The Departmental Senior Lecturer with two years' regular service in the grade will also be considered along with the outsiders and in case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

The Departmental Officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of Deputation/Contract including period of Deputation/Contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government, shall ordinarily not exceed five year's. The minimum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six year's as on the closing date of the receipt of applications).

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Senior Lecturer (Anaesthesiology)	01* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 14,300-400-15,900-450- 18,150/- plus Non-practicing Allowance.
(5)	(6)	(7)	
Not applicable	Not exceeding fifty years'. (Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not closing the date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	No	
(8)	(9)	(10)	(11)
Essential : (i) A basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register;	Not applicable	One year	Direct recruitment

(8)	(9)	(10)	(11)
(ii) M.D.(Anaesthesiology)/M.S. (Anaesthesiology) from a recognised University/Institution or equivalent.			
(iii) Three years' teaching experience in the concerned speciality after acquiring post-graduate qualification as Lecturer/Registrar/Senior Resident/Demonstrator/Tutor in a recognised Medical College/Teaching Institution.			

Note 1

Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2

The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

(12)	(13)	(14)
Not applicable	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Confirmation) : 1. Home Secretary, Chandigarh Administration —Chairman 2. Secretary, Medical Education and Research, Chandigarh Administration —Member 3. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh —Member. 4. Professor and Head of the con- cerned Department of Govern- ment Medical College and Hospital, Chandigarh —Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[No. V. 24011/8/2002-ME.Desk-II]

S. K. MISHRA, Under Secy.

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)**

(भारत का मौसम विज्ञान विभाग)

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2003

सा.का.नि. 64.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत मौसम विज्ञान विभाग (ज्येष्ठ वैयक्तिक सहायक) भर्ती नियम, 1990 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई हैं या करने से रह गई हैं, भारत के मौसम विज्ञान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में निजि सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत का मौसम विज्ञान विभाग (निजि सचिव) भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसके वेतनमान वह होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. रक्षा सेवा में सेवा की बाध्यता.—राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को या उसके पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) में वर्णित पदों पर नियुक्त कोई अधिकारी, यदि ऐसा अपेक्षित हो, भारत की रक्षा से संबंधित किसी रक्षा सेवा में चार वर्ष से अनधिक अवधि के लिए सेवा करने के लिए बाध्य होगा, इस में प्रशिक्षण पर व्यतीत की गई कोई अवधि, यदि कोई हो, भी सम्मिलित है। परन्तु यह कि ऐसा व्यक्ति से

(क) नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथापूर्वोक्त सेवा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(ख) 40 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् यथापूर्वोक्त सेवा करने के लिए साधारणतया अपेक्षा नहीं की जाएगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन, योग्यता या चयन-सह-ज्येष्ठता के आधार पर अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
निजी सचिव	5* (2003) *(कार्यभार के 'ख' राजपत्रित आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह	6500-200-10500 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	श्रेणी II आशुलिपिकों जो सीधे निजि सचिव के रूप में प्रोन्नत किए गए हैं के लिए दो वर्ष।
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	
11	12	
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<p>प्रोन्नति : ऐसे आशुलिपिक श्रेणी-I (5500-175-9000 रु. वेतनमान) जिसने अपनी श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो, जिसके न हो सकने पर आशुलिपिक श्रेणी-I जिसने आशुलिपिक श्रेणी-I (5000-175-9000 रु. वेतनमान) तथा (5000-150-8000 रु. वेतनमान) की श्रेणियों में छह वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा की हो दोनों के न हो सकने पर आशुलिपिक श्रेणी-II (5000-150-8000 रु. वेतनमान) जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण :</p> <p>जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति :</p> <p>केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या</p> <p>(ii) जो मूल काडर/विभाग में 5500-175-9000 रु. या समतुल्य वेतनमान में के पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा कर चुके हों; या</p> <p>(iii) जो मूल काडर/विभाग में 5000-150-8000 रु. या समतुल्य वेतनमान में के पदों पर छह वर्ष नियमित सेवा कर चुके हों; और</p> <p>(ख) आशुलिपी (अंग्रेजी या हिंदी) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति रखते हों। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी;)</p> <p>(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p>	

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

पुष्टि/प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति :

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं ।

1. अपर महानिदेशक, मौसम विज्ञान, भारत का मौसम विज्ञान विभाग —अध्यक्ष
2. उप महानिदेशक, मौसम विज्ञान, (प्रशासन और भंडार) भारत का मौसम विज्ञान विभाग —सदस्य
3. उप महानिदेशक, मौसम विज्ञान, जिसे महानिदेशक, मौसम विज्ञान द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा । —सदस्य

[सं. ए.-12052/ज्येष्ठ सहायक/1/98-स्था.1]

जे. एस. आर्य, मौसम विज्ञान के उपमहानिदेशक (प्रशासन एवं भण्डार)

पाद टिप्पणी :—अधिलेखन से संबंधित नियम भारत मौसम विज्ञान विभाग की दिनांक 16-7-1990 की अधिसूचना सं. ए-12055/1/88-स्था० (1) (जी० एस० आर० सं. 472) के तहत अधिसूचित किए गए थे।

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

(India Meteorological Department)

New Delhi, the 24th January, 2003

G.S.R. 64.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the India Meteorological Department (Senior Personal Assistant) Recruitment Rules, 1990, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Private Secretary in India Meteorological Department, Ministry of Science and Technology, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the India Meteorological Department (Private Secretary) Recruitment Rules, 2003.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of said these posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected there shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Liability to service in the Defence Service.**—Any officer appointed to the posts mentioned in Column 1 of the Schedule on or after the date of publication of these rules in the Official Gazette shall, if so required, be liable to serve in any defence service connected with the defence of India, for a period not less than four years including the period, if any, spent on training provided that such person—

(a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment;

(b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay
(1)	(2)	(3)	(4)
Private Secretary	05* (2003) *Subject to variation dependent on the workload	General Central Service Group 'B' Gazetted, Ministerial	Rs. 6500-200-10500
Whether selection by merit or selection-cum-seniority or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added year's of Service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	
(5)	(6)	(7)	
Non-Selection	Not applicable	Not applicable	
Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifica- tions prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by pro- motion or by deputation/ absorption and percent- age of the posts to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Two years for Grade-II Stenographers promoted directly as Private Secretary	Promotion failing which by deputation
In case of recruitment by promotion/deputation absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making Recruitment	
(12)	(13)	(14)	
Promotion : Stenographer Grade-I (Scale Rs. 5500-175-9000) with three years regular service in the grade failing which Steno- grapher Grade-I with six years combined regular service in the grades of Stenographer Grade I (Scale Rs. 5500-175-9000) and Stenographer Grade II (Scale Rs. 5000-150-8000) failing both, Stenographer Gr. II (Scale Rs. 5000-150- 8000) with six years regular service in the grade.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) : 1. Additional Director General of Meteorological, India Meteoro- logical Department —Chairman 2. Dy. Director General of Meteorology (Administration & Stores) India Meteorological Department—Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.	

(12)	(13)	(14)
<p>Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such a qualifying/eligibility service.</p> <p>Deputation : Officers under the Central Government :</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department;</p> <p>Or</p> <p>(ii) with three years regular service in posts in the scale of Rs. 5500-175-9000 or equivalent in the parent cadre/department;</p> <p>Or</p> <p>(iii) with six years regular service in posts in the scale of Rs. 5000-150-8000 or equivalent in the parent cadre/department;</p> <p>and</p> <p>(b) possessing a speed of 100 w.p.m. in Stenography (English or Hindi)</p> <p>(Period of Deputation including period of Deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years).</p> <p>(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. The Maximum age limit for appointment on deputation/absorption shall be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).</p>	<p>3. Dy. Director General of Meteorology to be nominated by the Director General of Meteorology —Member</p>	

[No. A-12052/Sr. P.A./1/98-E.I.]

J.S. ARYA, Dy. Director General of Meteorology
(Admn. & Stores)**जल संसाधन मंत्रालय**

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2003

सा.का.नि. 65.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग (जल स्कंध) समूह I और समूह II (विशेषज्ञ) पद भर्ती नियम, 1965 और केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग (जल स्कंध) अराजपत्रित (जल मौसम वैज्ञानिक) पद भर्ती नियम, 1972 को जहां तक उनका संबंध उप निदेशक (जल मौसम विज्ञान), सहायक निदेशक (जल मौसम विज्ञान), अतिरिक्त सहायक निदेशक (जल मौसम विज्ञान) और ज्येष्ठ वृत्तिक सहायक (जल मौसम विज्ञान), पदों से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है जल संसाधन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय जल आयोग के समूह "क" और समूह "ख" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय जल आयोग, समूह "क" और समूह "ख" (जल मौसम वैज्ञानिक) पद भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वह होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :

जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :

इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
1. उप निदेशक (जल मौसम विज्ञान)	4* *(2003) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	10000-325-15200 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं				सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8			9			10
लागू नहीं होता			नहीं			लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

(11)

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर, प्रतिनियुक्ति द्वारा

(12)

प्रोन्नति : ऐसे सहायक निदेशक (जल मौसम विज्ञान) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए, विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तक जब

12

कि उसके द्वारा की गई अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी की ली है।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के अधीन ऐसे अधिकारियों से

- (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 8000-13500 रु. या समतुल्य वेतनमान के पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; या
(iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 6,500-200-10500 रु. या समतुल्य वेतनमान के पदों पर आठ वर्ष नियमित सेवा की है; और
- (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अहताएं और अनुभव रखते हों—
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान या भू-भौतिकी या भू-विज्ञान या मौसम विज्ञान या जल विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य;
(ii) जल विज्ञानी और जल मौसम विज्ञानीय विश्लेषण/प्रयुक्त जल विज्ञान में पांच वर्ष का अनुभव।

टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिकतम नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह "क"
विभागीय प्रोन्नति समिति

जब किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जा रहा हो।

1. अध्यक्ष/सदस्य, केन्द्रीय जल आयोग —अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव, जल संसाधन मंत्रालय —सदस्य
3. मुख्य इंजिनियर केन्द्रीय जल आयोग —सदस्य

1	2	3	4	5	6	7
2. सहायक निदेशक (जल मौसम विज्ञान)	2* (2003) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित अनुसूचित	8000- 275- 13500 रु.	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	नहीं

8	9	10
आवश्यक :	नहीं	दो वर्ष
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान या भू-भौतिकी या भू-विज्ञान या मौसम विज्ञान या जल मौसम विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य।		
(ii) जल मौसम विज्ञान के कार्यों में तीन वर्ष का अनुभव।		
टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।		
टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।		

11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	<p>प्रोन्नति : ऐसे अतिरिक्त सहायक निदेशक (जल मौसम विज्ञान) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी—</p> <p>(क) (i) मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) मूल काडर/विभाग में 6500-200-10500 रु. या समतुल्य वेतनमान के पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; या</p> <p>(iii) मूल काडर/विभाग में 5500-175-9000/- रु. या समतुल्य वेतनमान के पदों पर आठ वर्ष नियमित सेवा की है; और</p> <p>(ख) स्तंभ 8 में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता है।</p> <p>टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

13	14
प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह "क"	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
विभागीय प्रोन्नति समिति :	
1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	—अध्यक्ष
2. मुख्य इंजीनियर केन्द्रीय जल आयोग	—सदस्य
3. निदेशक/उप-सचिव, जल संसाधन मंत्रालय	—सदस्य
पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति :	
1. मुख्य इंजीनियर केन्द्रीय जल आयोग	—अध्यक्ष
2. निदेशक/उप सचिव, जल संसाधन मंत्रालय	—सदस्य
3. सचिव/निदेशक (प्रशासन)/निदेशक(स्थापना)	
केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य

1	2	3	4	5	6	7
3. अतिरिक्त सहायक निदेशक (जल मौसम विज्ञान)	*16 (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" राजपत्रित अननुसचिवीय	6500- 200- 10500 रु.	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेश या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	नहीं

8	9	10
<p>आवश्यक :</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान या भू-भौतिकी या भू-विज्ञान या मौसम विज्ञान या जल मौसम विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य।</p> <p>वांछनीय :—जल मौसम विज्ञान में अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1 :—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2 :—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>	<p>उम्र : नहीं शैक्षिक अर्हता हां, स्तंभ 12 में दर्शित सीमा तक।</p>	<p>सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष</p>

11.	12
<p>(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।</p> <p>(ii) 50 प्रतिशत सीधी सीधी भर्ती द्वारा।</p>	<p>प्रोन्नति : ऐसे ज्येष्ठ वृत्तिक सहायक (जल मौसम विज्ञान) जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। और जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान या भू-भौतिकी या भू-विज्ञान या मौसम विज्ञान या जल मौसम विज्ञान में स्नातक डिग्री या समकक्ष हो, जिसके न हो सकने पर ज्येष्ठ वृत्तिक सहायक (जल मौसम विज्ञान) जिनकी सम्मिलित रूप से ज्येष्ठ वृत्तिक सहायक (जल मौसम विज्ञान) और वृत्तिक सहायक (जल मौसम विज्ञान) के ग्रेड में 6 वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान या भू-भौतिकी या भू-विज्ञान या मौसम विज्ञान या जल मौसम विज्ञान में स्नातक या समतुल्य डिग्री हो।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तक जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी की ली है।</p>

(12)

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी से—

- (क) (i) मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
(ii) मूल काडर/विभाग में 5500-175-9000 रु. या समतुल्य वेतनमान के पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है; या
(iii) मूल काडर/विभाग में 5000-150-8000/- रु. या समतुल्य वेतनमान के पदों पर आठ वर्ष नियमित सेवा की है; और
(ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र या भू-भौतिकी या भू-विज्ञान या मौसम विज्ञान या जल मौसम विज्ञान में डिग्री या समकक्ष रखता हो और मौसम वैज्ञानिक कार्यों का दो वर्षों का अनुभव हो।

टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13

14

प्रोन्नति/पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह "ख"
विभागीय प्रोन्नति समिति :

- | | |
|--|----------|
| 1. मुख्य इंजीनियर केन्द्रीय जल आयोग | —अध्यक्ष |
| 2. निदेशक/उप सचिव, जल संसाधन मंत्रालय | —सदस्य |
| 3. सचिव/निदेशक (प्रशासन)/निदेशक (स्थापना)
केन्द्रीय जल आयोग | —सदस्य |

सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6	7
4. ज्येष्ठ वृत्तिक सहायक (जल मौसम विज्ञान)	18* (2003) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" राजपत्रित अननुसचिवीय	5500-175-9000 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
8			9			10
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता			दो वर्ष

(11)

(12)

प्रोन्नति

प्रोन्नति : ऐसे वृत्तिक सहायक (जल मौसम विज्ञान) जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तक जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी की ली है।

13

14

प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह "क"
विभागीय प्रोन्नति समिति :

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

- | | |
|--|----------|
| 1. मुख्य इंजीनियर केन्द्रीय जल आयोग | —अध्यक्ष |
| 2. निदेशक/उप सचिव, जल संसाधन मंत्रालय | —सदस्य |
| 3. सचिव/निदेशक (प्रशासन)/निदेशक (स्थापना)
केन्द्रीय जल आयोग | —सदस्य |
| 4. किसी तकनीकी निदेशालय का निदेशक,
केन्द्रीय जल आयोग | —सदस्य |

[संख्या 1/2003/फाइल सं. 39/1/95-स्थापना-1]

अशोक झा, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 8th January, 2003

G.S.R. 65.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Water and Power Commission (Water Wing) Class-I and Class-II (Specialist) Posts Recruitment Rules, 1965 and the Central Water and Power Commission (Water Wing) Non-Gazetted Hydrometeorological Posts Recruitment Rules, 1972, in so far as these relate to the posts of Deputy Director (Hydrometeorology), Assistant Director (Hydrometeorology), Extra Assistant Director Hydrometeorology, and Senior Professional Assistant (Hydrometeorology), except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'A' and Group 'B' Hydrometeorological posts of Central Water Commission under the Ministry of Water Resources, namely :—

1. **Short title and commencement** :—(1) These rules may be called the Central Water Commission, Group 'A' and Group 'B' Hydrometeorological posts Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay** :—The number of said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.**—The method of recruitments to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualifications** :—No person,

- Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax** :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving** :—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of the age limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection or Non-Selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Deputy Director (Hydrometeorology)	4* (2003) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service 'Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 10000-325-15200	Selection	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	No	Not applicable	Promotion failing which by deputation

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making Recruitment
(12)	(13)	(14)

Promotion :
Assistant Director (Hydrometeorology) with five years regular service in the grade
Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along-with their junior who have already completed such qualifying/eligibility service.

Deputation :

Officers under the Central/State Governments—

(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre/department;

Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering promotion :

1. Chairman /Member, Central Water Commission —Chairman
2. Joint Secretary, Ministry of Water Resources —Member
3. Chief Engineer, Central Water Commission —Member

Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation

(12)	(13)	(14)
<p>(ii) with five years regular service in posts in the scale of pay of Rs. 8000-13500 or equivalent in the parent cadre/department; and</p> <p>(iii) with eight years regular service in posts in the scale of pay of Rs. 6500-200-10,500 or equivalent in the parent cadre/department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience</p> <p>(i) Master's degree in Physics or Geophysics or Geology or Meteorology or Hydrometeorology from a recognised University or equivalent.</p> <p>(ii) Five years experience in hydrological and hydrometeorological analysis/applied hydrology</p> <p>Note : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Assistant Director (Hydrometeorology)	6* (2003) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 8000-275-13500	Selection	<p>Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)</p> <p>Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep).</p>	No

(8)	(9)	(10)	(11)
Essential: (i) Master's degree in Physics or Geophysics or Geology or Meteorology or Hydrometeorology from a recognised University or equivalent. (ii) Three years experience in Hydrometeorological work. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. If at any stage of the selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the post(s) reserved for them.	No	Two years	Promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment.

(12)	(13)	(14)
Promotion : Extra Assistant Director (Hydrometeorology) with five years' regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their junior who have already completed such qualifying/eligibility service. Deputation : Officers under the Central/State Governments/ (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with five year's regular service in posts in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 or equivalent in the parent cadre/department; or (iii) with eight years regular service in the	Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering Promotion : 1. Chairman /Member, Union Public Service Commission —Chairman 2. Chief Engineer, Central Water Commission —Member 3. Director/Deputy Secretary, Ministry of Water Resources —Member Group 'A' Departmental Promotion Committee considering confirmation : 1. Chief Engineer, Central Water Commission —Chairman 2. Director—Deputy Secretary Ministry of Water Resources —Member 3. Secretary/Director Administration\Director (Establishment) Central Water Commission —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

posts in the scale of pay of Rs. 5500-175-9000/- or equivalent in the parent cadre/department; and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits in column 8.

Note : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. The Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Extra Assistant Director (Hydrometeorology)	16* (2003) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 6500--200-10500	Selection	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep).	No

(8)	(9)	(10)	(11)
Essential: (i) Master's degree in Physics or Geophysics or Geology or Meteorology or Hydrometeorology from a recognised University or equivalent. Desirable: Experience in Hydrometeorological work.	Age: No Educational Qualifications: Yes to the extent indicated in column 12.	Two years for direct recruits	(i) 50% by promotion failing which by deputation and (ii) 50% by direct recruitment.
Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.			
Note 2 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of the selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the post(s) reserved for them.			

(12)	(13)	(14)
Promotion : Senior Professional Assistant (Hydro-meteorology) with three years regular service in the grade and possessing Bachelor's degree in Physics or Geophysics or Geology or Meteorology or Hydrometeorology from a recognised University or equivalent failing which by Senior Professional Assistant (Hydrometeorology) with six years regular combined service in the grades of Senior Professional Assistant (Hydrometeorology) and Professional Assistant (Hydro-meteorology) and possessing Bachelor's Degree in Physics or Geophysics or Geology or Meteorology or Hydrometeorology from a recognised University or equivalent.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion/confirmation) : 1. Chief Engineer, Central Water Commission—Chairman 2. Director/Deputy Secretary, Ministry of Water Resources—Member 3. Secretary/Director (Administration)/Director (Establishment), Central Water Commission—Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation.
Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the		

(12)

requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Deputation :

Officers under the Central/State Government—

- (a)(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre/department; or
- (ii) with three years regular service in posts in the scale of pay of Rs. 5500-175-9000 or equivalent in the parent cadre/department; or
- (iii) with eight years regular service in the posts in the scale of pay of Rs. 5000-150-8000 or equivalent in the parent cadre/department; and
- (b) possessing degree in Physics or Geophysics or Geology or Meteorology or Hydrometeorology from a recognised University or equivalent and having two years experience in Hydrometeorological work.

Note : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. The period of deputation in another ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Senior Professional Assistant (Hydro-Meteorology)	18* (2003) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 5500-175-9000	Selection	Not applicable	Not applicable
(8)	(9)		(10)		(11)	
Not applicable	Not applicable		Two years		Promotion	

(12)	(13)	(14)
<p>Promotion : Professional Assistant (Hydro-Meteorology) with three years regular service in the grade.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chief Engineer, Central Water Commission—Chairman 2. Director/Deputy Secretary, Ministry of Water Resources—Member 3. Secretary/Director (Administration)/Director (Establishment), Central Water Commission—Member 4. Director of any technical Directorate, Central Water Commission—Member. 	<p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary.</p>

[No. 1/2003/F. No. 39/1/95-Estt. I]

ASHOK JHA, Under Secy.